



खबर संक्षेप



**पंजीयन से वंचित कृषक ने जनदर्शन में लगाई गुहार**  
दुर्ग। ग्राम रंगा कठरा निवासी कृषक ने धान विक्रय हेतु पंजीयन कराने आवेदन दिया। उन्होंने बताया कि, ऋण पुस्तिका में त्रुटि सुधार किया गया, जिसके कारण पंजीयन कराने में विलम्ब हो गया। धान की फसल विक्रय करने के लिए पंजीयन दर्ज कर टोकन दिलाने गुहार लगाई। वही कोडिया निवासी छात्रा ने शिक्षा प्रदान करने आदिम जाति विभाग द्वारा संचालित विज्ञान विकास केन्द्र के छात्रावास में प्रवेश दिलाने आवेदन दिया। वार्ड-34 भिलाई वार्डवासियों ने आबादी क्षेत्र में किए जा रहे पशुपालन की शिकायत की। उन्होंने बताया कि मिलन चौक स्कूल के सामने घनी आबादी वाले क्षेत्र में गाय और बकरी पालन किया जा रहा है, जिससे यहां पर निवास करने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। धमधा निवासी ने शासकीय घास जमीन में गोबर खाद गढ़ा को बंद करने का आदेश देना कि वार्ड क्रमांक 10 में ओम साईं संस्कृत विद्यालय के बाजू में शासकीय भूमि आम रस्ता में गोबर खाद गढ़ा बनाया गया है, जिससे उक्त खाद गढ़ा के दुर्गन्ध से आस-पास के रहवासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

**इंदिरा मार्केट से मोटर-साइकिल की चोरी**  
दुर्ग। ग्राम नगपुरा निवासी मनोज कुमार साहू ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पीछित के अनुसार विगत सात दिसंबर को हीरो होंडा सीडी डीलक्स लेकर इंदिरा मार्केट सामान खरीदने पहुंचा था। करीब 3.40 बजे पहुंचे और वापस 4.05 मिनट को देखा कि, उनका बाइक सीजी 07एडी 0598 चेचिस नंबर एमबीएलएचए 11 ईएनबी 9एफ 13127 वहां नहीं था। उन्होंने कोतवाली थाना दुर्ग में शिकायत दर्ज कराई और जल्द से जल्द बाइक की पतासाजी करने की मांग की है।

# दौरा : भाजपा कार्यालय में चली सवा घंटे बैठक, कार्यकर्ताओं ने बताई पीड़ा मंत्री से राजस्व प्रकरण, नशाखोरी और पट्टा वितरण को लेकर शिकायतें

हरिभूमि न्यूज ॥ दुर्ग

उप मुख्यमंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री विजय शर्मा के सामने कार्यकर्ताओं ने ढेरों शिकायतों की झड़ी लगा दी। भाजपा कार्यालय में सोमवार को आयोजित बैठक में राजस्व प्रकरण को लेकर नाराजगी जताई गई, वही जिले में नशा और बढ़ते अपराध के आलावा धान खरीदी की पीड़ा से गुजर रहे किसानों के हालातों का कार्यकर्ताओं ने मंत्री के सामने जिक्र किया है। यही नहीं कार्यकर्ताओं ने प्राशासनिक कार्य में भी कसावट लाने तक की सुझाव दे डाली।

जानकारी अनुसार राजस्व प्रकरण के रिकार्ड दुरुस्त नहीं किए जाने की शिकायत की गई। इस दौरान नामांतरण नहीं होने और रिकार्ड दुरुस्तीकरण के लिए चक्कर काटने की शिकायत की गई, वहीं कार्यकर्ताओं ने जिले में बढ़ते अपराध और नशाखोरी पर लगाम लगाने की मांग मंत्री से की है। इसके आलावा गो तस्करी पर भी कार्यवाही की मांग की गई। एक कार्यकर्ता ने पट्टा वितरण लंबे समय से नहीं होने की बात मंत्री को बताई। जिस पर मंत्री ने कुछ तकनीकी कमियों को दूर करने का आश्वासन दिया है। बताया गया कि, इंदिरा मार्केट में स्वच्छता अभियान के कार्यक्रम के बाद प्रभारी मंत्री विजय शर्मा सीधे भाजपा कार्यालय पहुंचे, जहां सवा घंटे तक लंबी बैठक चली। इस बैठक में चालीसे से अधिक कार्यकर्ता और सभी विधायक शामिल हुए थे।

## भाजपा कार्यालय में चली सवा घंटे की नैराशन बैठक, कार्यकर्ताओं की सुनी समस्याएं



### चुनावी तैयारियों को लेकर नैराशन बैठक

आगामी दिनों होने वाले नगरीय निकाय और क्रिस्तीय चुनाव को लेकर मंत्री ने भाजपा कार्यालय में बैठक ली। उन्होंने इस दौरान जिला संगठन की तैयारियों की जानकारी ली और सुझाव भी मांगे। उन्होंने कहा कि, मोदी को गारंटी और चुनाव वायदा की पूरा करने में विष्णुदेव सरकार देश में पहली पायदान पर रही है। इसलिए चुनाव के समय कार्यकर्ता को कोई झिझक की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा धान खरीदी 31 से हो या महतारी वंदन सहित पीएससी मामले कार्यवाही की गई है, जो आगे भी जारी रहेंगी। कुछ घोषणाएं बची है, उसे भी पूरा किया जाएगा।



### मंत्री ने खाया विधायकों संग सनोसा

इंदिरा मार्केट से भाजपा कार्यालय पहुंचने के पूर्व तहसील कार्यालय के पास स्थित विश्वकर्मा होटल पहुंचकर प्रभारी मंत्री ने चाय व स्मोका पकीड़ा का आनंद लिया। साथ ही प्रदेश में मुख्य मंत्री विष्णु देव साय सरकार के एक साल पूरे होने पर कामकाज का फोंडबैक भी लिया। इस दौरान दुर्ग वार्डों वार्डों विधायक व राज्य पिछड़ा आयोग उपाध्यक्ष ललित चंद्राकर, शहर विधायक गजेन्द्र यादव, साजा विधायक ईश्वर साहू, पूर्व सभापति दिनेश देवांगन, जिला मंत्री आशेष निमजे, प्रदेश भाजपुमो कोषाध्यक्ष नितेश साहू सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद थे। मंत्री ने सरकार के एक साथ के कार्यकाल का फोंडबैक लिया, दूकान संचालक ने जवाब देते हुए शासन की योजनाओं की प्रशंसा की और फोटो भी खिंचवाया।

**जेपी नड्डा के कार्यक्रम के लिए दिए टास्क**  
भाजपा कार्यालय में मंत्री ने उद्बोधन के दौरान कहा कि, निकाय और पंचायत चुनाव की पूरी कड़ी में भाजपा की जीत होनी चाहिए। ताकि कांग्रेस जनता से जुड़ी अच्चे कार्य में अडगन न डाल सके। उन्होंने कहा निकाय से लेकर पंचायत, जनपद और जिले में भाजपा की जीत सुनिश्चित करनी है। उन्होंने कहा आगामी तेरह दिसंबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रायपुर आएंगे। इस दौरान अधिक से अधिक संख्या में भीड़ जुटाने संगठन को टास्क दिए गए हैं।

# बीएलओ इयूटी में कार्यरत शिक्षकों ने मांगी सुरक्षा



हरिभूमि न्यूज ॥ दुर्ग

उचित व ठोस कदम उठाने की मांग की गई। आगामी नगरीय निकाय चुनाव संबंधी प्रशिक्षण शीतकालीन अवकाश अवधि को छोड़कर आयोजित किया जाने तथा लोकसभा निर्वाचन में अहिंसा कर्मचारियों का मानदेय भुगतान कराने की मांग ज्ञापन के माध्यम से किया गया। इस दौरान ओमप्रकाश पांडेय, जयंत यादव, कमल वैष्णव, विरेन्द्र वर्मा, संजय चंद्राकर, राजेश चन्द्राकर, किशन देशमुख, चन्द्रहास साहू, टामिन वर्मा, अमिता हरमुख, राजेश्वर देशमुख, राहुल झा, अब्दुल वहाब खान शिक्षक उपस्थित रहे।

# उपमुख्यमंत्री व विधायकों ने स्वच्छता रैली को किया रवाना

हरिभूमि न्यूज ॥ दुर्ग

शिवेंद्र परिहार, काशीराम कोसरे, मनीष साहू, अजीत वैध, कमल देवांगन, कुलेश्वर साहू, दिनेश देवांगन, अलका बाघमार सहित जनप्रतिनिधियों रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम के तहत नौ दिसंबर को स्वच्छता रैली एवं सायकल रैली का आयोजन किया जाना है। साथ ही शासन द्वारा 01 वर्ष में हुए जनहितकारी योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित हुए हितग्राहियों के विषय में बताया जाना है। वहीं 10 से 11 दिसम्बर निकाय क्षेत्र अंतर्गत आने वाले समस्त जल स्रोतों तालाब एवं सार्वजनिक क्षेत्र में आम जनों के माध्यम से सफाई अभियान किया जाना है।

# बुनियादी सुविधाओं से वंचित उरलावासियों ने बताई पीड़ा

दुर्ग। आईएचएसडीपी कॉलोनी उरला में पिछले 14 वर्षों से निवास करते आ रहे हैं। वहाँ के वासी लोगों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। पिछले 14 वर्षों से लगातार वहाँ पर ना तो साफ सफाई हो रहा है। यहाँ नाली जगह-जगह से टूटा हुआ है, सडक जगह-जगह गडदा हो गया है। बिजली की सुविधा भी ठीक से नहीं है, कभी भी बिजली बंद हो जाता है। रात-रात भी बिजली नहीं आती है। कई मकानों के छत टूट चुके हैं। गटर भर जाता है,



जिससे गंदा पानी घरों में घुस जाता है। मकान में ना खिडकी ना दरवाजा है। कई आईएचएसडीपी के मकान गिर चुके हैं। कई बार शिकायत के बावजूद निगम अधिकारियों के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। इन तमाम समस्याओं की सुनवाई नहीं होने से नाराज उरलावासियों ने कलेक्टर जनदर्शन में ज्ञापन दिया है, वही उन्होंने कहा है निगम को उक्त आवास का किस्स बात का पैसा पटायें। आईएचएसडीपी के पूरा पैसा पटायेंगे पर ऐ सारी सुविधाएँ उपलब्ध कराने की मांग उनके द्वारा की गई है। आईएचएसडीपी के मकानों का टैक्स राशि माफ करने की मांग रखी है।

# आज सुबह से होगी पानी की सप्लाई

दुर्ग। जीई रोड में पोस्ट ऑफिस के पास शनिचरी बाजार की पानी टंकी भरने वाली 450 एमएम डाय का पाइप लाइन क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण पानी व्यापक मात्रा में बह रहा है, जिससे सुधारने अमला सोमवार से जूटा हुआ था। बताया गया कि, मंगलवार को सुबह से पानी सप्लाई शुरू हो जाएगी।

**आमंत्रण**

**कार्यालय नगर पालिका परिषद जामुल, जिला-दुर्ग (छ.ग.)**

**विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन**

कार्यक्रम- 10-12-2024 दिन मंगलवार  
समय दोप. 1:30 बजे से  
स्थान - कार्यालय प्रांगण, न.पा.प. जामुल

**मुख्य अतिथि :-**  
**मान. श्री अरुण साव जी,**  
उपमुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन  
नगरीय प्रशासन, लोकनिर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विधी और विधायी कार्य

**अध्यक्षता:-**  
**मान. श्री विजय बघेल जी**  
(सांसद दुर्ग लोकसभा)

**विशेष अतिथि:-**  
**मान. श्री डोमन लाल कोसेवाड़ा जी** (विधायक अहिंसा, विधानसभा)  
**मान. श्री ईश्वर सिंह ठाकुर जी** (अध्यक्ष, न.पा.प. जामुल)  
**मान. श्री नटवर ताम्बकार जी** (अध्यक्ष, न.पा.प.अहिंसा)

के करकगलों से संपन्न होना है। जिसमें आपकी गरिमानयी उपस्थिति प्रायर्नीय है।

**विशिष्ट अतिथि :**

**सम्मानिय पार्षदगण :**

**सांसद प्रतिनिधी**

**विनीत-मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद जामुल**

खबर संक्षेप

जामगांव आर में स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम आज  
जामगांव आर। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत सम्मान कार्यक्रम का आयोजन 10 दिसंबर को बाजार चौक कला मंच जामगांव आर में रखा गया है।  
मुख्यातिथि जामगांव आर भाजपा मंडल अध्यक्ष लालेश्वर साहू होंगे। अध्यक्ष सरपंच राजकुमार ठाकुर करेंगे। विशेष अतिथि सोसायटी अध्यक्ष भगवान सिंह चंद्राकर, शाकरीका कॉलेज समिति अध्यक्ष नरेश केला, मंडल उपाध्यक्ष अंगेश्वर साहू, भाजपा युवा मोर्चा जामगांव आर मंडल अध्यक्ष नारद साहू, महिला मंडल अध्यक्ष शैलेन्द्री मंडावी, न्यू अध्यक्ष द्रवितीयाराम साहू और मुकेश साहू मंचासन रहेंगे।

पेंशनर्स महासंघ ने सुखदेव को किया याद



अंडा। भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ जिला दुर्ग द्वारा ग्राम अण्डा जिला दुर्ग में स्थापित क्रांतिवीर सुखदेव राज के जन्मतिथि के अवसर पर 7 दिसम्बर को उनके प्रथम में माल्यापन कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमें मुख्य अतिथि ग्राम पंचायत अण्डा के सरपंच उमादेवी चंद्राकर, उपसरपंच अमित चंद्राकर, पुकेश चंद्राकर महामंत्री भाजपा, भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ जिला दुर्ग के उपाध्यक्ष बीएल गजपाल, सचिव पीआर साहू, विजय कुमार देशमुख, पीके चिवराम, केपी देशमुख, डीपी चंद्राकर, बीएल बघेल, किशोर चंद्राकर, हेमंद्र चंद्राकर, बंशीलाल चंद्राकर, बलदाऊ निर्मलकर ठेकेदार, तेज राम चौधान आदि उपस्थित थे। उक्त कार्यक्रम में भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ जिला दुर्ग के सचिव द्वारा क्रांतिवीर सुखदेवराज की प्रतिमा स्थल का जीर्णोद्धार करवाने के संबंध में संघ द्वारा किए जा रहे प्रयास की जानकारी दी गई।

कुथरेल में श्रीमद् भागवत महापुराण कथा शुरू



अंडा। गायत्री ज्ञान मंदिर एवं समस्त ग्रामवासी कुथरेल के तत्वावधान में आयोजित श्रीमद् भागवत महापुराण कथा एवं पांच कुंडीय गायत्री महायज्ञ का आज भव्य कलश यात्रा के साथ शुभारंभ हुआ। कुथरेल में आयोजित इस आध्यात्मिक आयोजन को लेकर ग्रामवासियों में काफी उत्साह दिखा जिसका परिणाम कलश यात्रा में सैकड़ों की भीड़ में महिलाओं ने सर पर कलश लेकर राधे-राधे जय कृष्णा की जयकारों के साथ कलश यात्रा में भाग लिया। बाजे-गाजे के साथ भव्य कलश यात्रा गायत्री ज्ञान मंदिर से निकलकर पूरे गांव का भ्रमण करते हुए शीतला तालाब से जल लेकर वापस गांव का भ्रमण करते हुए कार्यक्रम स्थल पहुंचा। गायत्री परिवार के परिजनों ने प्रज्ञा गीतों को गाते हुए कलश यात्रा में भाग लिए। कलश को विशेष रूप से सजाया गया जिसमें आम पत्ता नारियल साथ ही 100 से अधिक कलश में जावरा के साथ कलश यात्रा निकाला गया। जावरा के साथ कलश यात्रा देखकर ग्रामवासी काफी उत्साहित नजर आए व आकर्षण का केंद्र यही बना रहा।

# ग्राम पंचायत सेलूद में लोकार्पण और भूमिपूजन समारोह आयोजित भाजपा सरकार में जनहित की योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही है: सांसद विजय

हरिभूमि न्यूज >>> सेलूद

ग्राम पंचायत सेलूद में लोकार्पण एवं भूमिपूजन समारोह आयोजित हुई। जिसमें दुर्ग सांसद विजय बघेल के द्वारा विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला पंचायत सदस्य हर्षा लोकमणि चंद्राकर ने की। ग्राम पंचायत के सरपंच खेमिन साहू के नेतृत्व में ग्रामीणों ने सांसद विजय बघेल का जोशीला स्वागत किया। पूजा-अर्चना के बाद विभिन्न विकास कार्यों की सौगात ग्रामवासियों को मिला। इसके बाद उन्होंने स्वच्छता एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाले मितानिन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं को भी सम्मानित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विजय बघेल ने कहा कि आज पाटन विधानसभा के विभिन्न गांवों में लगभग दस करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया। वहीं ग्राम सेलूद में 16 विकास कार्यों के लिए लगभग एक करोड़ रुपये का लोकार्पण किया गया है। प्रदेश और देश में प्रधानमंत्री मोदी और प्रदेश के मुखिया

## मितानिन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं को किया सम्मानित



साय द्वारा अनेक जन कल्याणकारी योजनायें जनता के लिए चलाया जा रहा है। हमारी सरकार का प्रयास है कि पंचायती राज के चार चरणों के माध्यम से गांव के सबसे अंतिम व्यक्ति को सरकार की योजना का लाभ मिले। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में चुनाव होना एक कड़ी है। बीते पांच सालों में कई योजनाएं का क्रियान्वयन ही नहीं हो रहा था अब सरकार बदलने के बाद योजनाएं पुनः चालू हुआ है आपके गांव में ही 121 लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलने वाला है। वहीं लगभग चौदह सौ से अधिक महिलाओं को महतारी वंदन योजना में प्रतिमाह एक हजार रुपये की राशि का लाभ मिल रहा है। ग्राम सेलूद में भी बीते दस साल कार्यकाल के उपलब्धि दिखाई दे रहा है।

वहीं स्वागत भाषण में सरपंच खेमिन साहू ने दुर्ग सांसद विजय बघेल के सामने सेलूद में कन्या महाविद्यालय व सेलूद की बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए स्वास्थ्य सुविधा के रूप में 10 बिस्तर अस्पताल खोले जाने की मांग रखी। साथ ही ग्राम सेलूद में करोड़ों के विकास कार्य देने के लिए सेलूद की जनता की ओर से सांसद को धन्यवाद दिया। मंच संचालन सचिव महेंद्र साहू ने किया।  
इस अवसर पर जिला पंचायत सदस्य हर्षा चंद्राकर, मंडल अध्यक्ष खेमलाल साहू, लालेश्वर साहू, लोकमणी चंद्राकर, निशा सोनी, चंद्रिका साहू, दिव्या कलिहारी, आत्मानंद के प्राचार्य एनपी देशकर, महेश्वर बंधोरे, टामन लाल साहू, लालजी साहू, सुरेंद्र बंधोरे, हरप्रसाद आडिल, रमेश देवांगन, चंचल यादव, तारेन्द्र बंधोरे, नंदकुमार तिवारी, किरण सोनवानी, सुनीता सेन, गोविंद साहू, तुका राम सेन, लक्ष्मण वर्मा, लाल दास, आंकार दास, टीकाराम देवांगन, टीपी शर्मा, भोला राम साहू, शैल साहू, ललित साहू आदि उपस्थित थे।

## अंजोरा में दिव्यांग दिवस का हुआ आयोजन



अंडा। शाउमा शाला अंजोरा (ख) दुर्ग में दिव्यांग दिवस के अवसर पर सम्मानित किया। कार्यक्रम का आयोजन प्राचार्य होरीलाल चतुर्वेदी के अध्यक्षता में किया गया। सर्वप्रथम प्राचार्य होरीलाल चतुर्वेदी ने अध्यक्षीय उद्बोधन प्रस्तुत करते हुए दिव्यांग दिवस पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हमारे शाला के दिव्यांग व्याख्याता गण शिवनारायण देवांगन 'आस', मनोज कुमार गुप्ता व उमा राठौड़ कार्यरत है जो अध्यापन के साथ हर क्षेत्र में अग्रणी रहते हैं। इनके काम को देखकर नहीं लगता कि दिव्यांग है हम सबको गर्व है कि ये हमारे शाला को गौरवान्वित कर रहे है। तत्पश्चात प्राचार्य व सभी लोगों ने मिलकर व्याख्याता जीवविज्ञान शिवनारायण देवांगन, व्याख्याता वाणिज्य मनोज कुमार गुप्ता व व्याख्याता अंग्रेजी उमा राठौड़ को सम्मानित कर प्रोत्साहित किया। वहीं शाला में अध्ययनरत दिव्यांग विद्यार्थी राजेश्वरी निषाद, वेदांत सिन्हा, चंदन, कुणाल निर्मलकर को भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर शाला के सभी शिक्षक मंच में उपस्थित होकर कार्यक्रम को सफल बनाए जिसमें व्याख्यातागण शशीकला चन्द्राकर, खुशबू जैमिनी, ममता देवांगन, सरस्वती श्रीवास्तव, शारदा साहू, भिनेश्वरी साहू, व्यायाम शिक्षक सुभाषिणी ऐलन, विज्ञान सहायक शिक्षक अभिलाषा साहू, मीना रावटे, आकाश दुवे आदि उपस्थित थे।

# सभी मांगे पूर्ण होने तक जारी रहेगा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का आंदोलन

हरिभूमि न्यूज >>> धमधा

अपनी मांगों को लेकर धमधा ब्लॉक के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं का धरना 7 वें दिन भी जारी रहा। सोमवार को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने रैली के रूप में



■ एसडीएम धमधा ने धरना स्थल पहुँच कर किया धरना स्थगित करने का प्रयास  
एसडीएम कार्यालय धमधा पहुंच कर ज्ञापन दिया। तत्पश्चात एसडीएम धमधा सोनल डेविड एवं प्रशिक्षु कलेक्टर भागवत ने धरना स्थल पहुंच कर कार्यकर्ताओं को समझाने का प्रयास किया, लेकिन कार्यकर्ताओं ने कहा कि उनकी मांगों को शासन द्वारा नजर अंदाज

## शिक्षा ने किया भूले बिसरे गीत का आयोजन

अंडा। शिक्षक कला व साहित्य अकादमी छत्तीसगढ़ ने कला व संस्कृति के संवर्धन व विलुप्त हो रहे छत्तीसगढ़ी गीतों को पुनः स्मरण करने 'छत्तीसगढ़ी भूले बिसरे गीत 'मया पिरित' का आयोजन संयोजक डॉ. शिवनारायण देवांगन आस के संयोजन कार्यक्रम प्रभारी विजय कुमार प्रधान के उपस्थित व टीकाराम सारथी प्राचार्य चुरतेली सक्ती के अध्यक्षता में हुआ। सर्वप्रथम संस्थापक व संयोजक डॉ.शिवनारायण देवांगन 'आस' ने कार्यक्रम के विषय में जानकारी दिया और कहा शिक्षा भूले बिसरे गीतों के संवर्धन करने निरंतर कार्यक्रम का आयोजन करते आ रहे है। इसमें ज्यादा से ज्यादा शिक्षक शामिल होकर अपनी प्रतिभा को पहचान दे सकते है। कार्यक्रम में मदनलाल तोमर, चन्द्रकला शर्मा, शशिकला पाण्डेय, विन्ध्यवासिनी पांडे, डॉ. प्रमोद आदित्य, रामलाल कोसले,



हेमा चन्द्रवंशी, रेखा पात्रे, सुमनलता साहू, मोहित कुमार शर्मा, शिवकुमार अंगारे, ओपी कौशिक 'रतनपुरिहा', रामकुमार पटेल, धारा बन्धोरे, निशा गुप्ता चौधरी आदि उपस्थित थे।

## युवा उत्सव में प्रतिभागियों ने दी शानदार प्रस्तुति

हरिभूमि न्यूज >>> सेलूद

छ्मा शासन खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा ग्रामीण प्रतिभा को मंच प्रदान करने के लिए प्रति वर्ष विखंड से लेकर राष्ट्रीय स्तर के लिए युवा उत्सव का आयोजन पूरे प्रदेश में किया जाता है। इसी क्रम में जिला स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन सेजस सेलूद खेल मैदान में किया



### ये प्रतिभागी रहे विजेता

सांस्कृतिक लोकगीत में प्रथम सुमन जोशी एवं साथी धमधा, द्वितीय मोना साहू एवं साथी पाटन, लोक नृत्य एकल प्रथम मोना साहू पाटन, एकल लोकगीत प्रथम भूमिका साहू मकवारी दुर्ग, द्वितीय सुभाष साहू धमधा, लोक नृत्य प्रथम मोना साहू एवं साथी पाटन, तात्कालिक भाषण में प्रथम दीपांशु नेताम मिलाई, द्वितीय शुभम धमधा, कविता प्रथम निखिल चतुर्वेदी पाटन, द्वितीय रिनु कुमकार दुर्ग, चित्रकला में प्रथम तेजस साहू पाटन, कठाली लेखन प्रथम अंजलि ध्रुव पाटन, द्वितीय खुशी ठाकुर धमधा, हस्तशिल्प प्रथम कंचन चंद्राकर दुर्ग, द्वितीय सुनील डेहरिया पाटन, विज्ञान मेला प्रथम पाटन, कृषि उत्पादन प्रथम पाटन के प्रतिभागी रहे।

प्रचलन मुख्य अतिथि खेमिन साहू सरपंच ग्राम पंचायत सेलूद, अध्यक्षता एनपी देशकर प्राचार्य सेजस सेलूद, एमबी बंजारे सहित अन्य उपस्थित अतिथियों के द्वारा किया गया। मंच संचालन नरोत्तम साहू ने एवं आभार प्रदर्शन ने प्रदीप भुवाल किया। मौके पर विलयम लकरा सहा. संचालक दुर्ग, पोखन लाल साहू नोडल अधिकारी, निर्णायक गण नंदनी यदु, रामेश्वरी, भगवती लेखाद बनपेला, पियाली सेन, नितिन शर्मा, आरती मिश्रा, शकीला देवदास, अशोक रिगरी, कौशलेंद्र पटेल, जयंत वर्मा, बालाराम साहू आदि उपस्थित थे।

# छत्तीसगढ़ के 1111 सरस्वती शिशु मंदिर में अर्धवार्षिक परीक्षा शुरू

हरिभूमि न्यूज >>> जामगांव आर

छत्तीसगढ़ प्रदेश के 1111 सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालयों में सोमवार को अर्धवार्षिक परीक्षा प्रारंभ हुई। सरस्वती शिशु मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जामगांव आर प्राचार्य पूरनलाल बारले ने बताया कि 9 दिसम्बर से शुरू हुई जो अर्धवार्षिक परीक्षा 21 दिसम्बर को समाप्त होगी। सरस्वती शिक्षा संस्थान छत्तीसगढ़ रायपुर के दुर्ग संभाग समन्वयक दीपक सोनी ने बताया कि प्रदेश के सभी सरस्वती शिशु मंदिर में नियत समय पर परीक्षा 9 बजे से 11 बजे पूर्व प्राथमिक एवं प्राथमिक और 12 बजे से 3 बजे मिडिल हाई एवं हायर क्लास स्तर



### विजेता किए जाएंगे सम्मानित

उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त प्रतिभाशाली बच्चों का सम्मान डॉ डेवोवार सदन में स्थानीय विवेकानंद जन्मोत्सव समारोह 12 जनवरी 2025 को किया जाएगा।

### होगी प्रतिभा खोज स्पर्धा

प्राचार्य बारले ने बताया कि विद्यालय में 21 वार्षी से संस्कारित शिक्षा ग्रहण करने विद्यार्थी आते हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा समाप्ति के बाद 23 एवं 24 दिसंबर को विद्यालय में गत वर्षों की भांति विद्यालय स्तर पर प्रतिभा खोज स्पर्धा का दो दिवसीय आयोजन रखा गया है। जिसमें गणित प्रदर्शनी, व्यंजन मेला, खो-खो, कबड्डी, बैडमिंटन, योग शतरंज आदि खेल की योजना नियोजित की जा चुकी है। प्रतिभागिता फार्म वितरित की जा चुकी है प्रतिभागी को फार्म जमा करने की अंतिम तिथि 14 दिसंबर 2024 रक्की गई है।

### न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.) उद्घोषणा

रा.क्र.क्र./2024/1104700062/अ-74  
खर्च 2023-24  
एनए द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक- श्री राम प्रसाद साहू पिता- कर्नालिक राम साहू निवासी- दूर तहसील व जिला दुर्ग के क्षेत्र अपने भूमिस्वामी हक की भूमि ग्राम दूर प.ह.नं. 12 या.वि.मं.-दुर्ग-01, तह 0 व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खरार नंबर 280 कच्चा 0. 3100 हेक्टेयर भूमि प्राप्त अध्यापिका राम हो जाने के कारण चालान की मूल प्रति, बैंक की द्वारा प्रस्तुत अनर्पण प्रमाण पत्र, थाना फाईट व राजस्व ऑफिसलेख सहित द्वितीय प्रति अध्यापिका मिलने हेतु आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। अनएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अध्यापिका संस्था को किसी प्रकार का उजर या दबा हो तो यह निवृत्त पेशी दिनांक 11/12/24 तक स्वयं या अपने विधिमाम्य अधिकारों के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में अपनी आवेदन पेश कर सकते हैं। समयवधि पश्चात अपारिण प्रस्तुत होने पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।  
आज दिनांक 25/11/24 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के इत्तहाद पर न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।  
जारी दिनांक- 25/11/24  
सुनवाई दिनांक- 11/12/24  
अति. तहसीलदार दुर्ग

## अंचल की खबरें गायत्री महायज्ञ का निमंत्रण देने घर-घर दस्तक



धमधा। नौ कुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन 21 से 23 दिसंबर तक गायत्री मंदिर धमधा के पास होगा। इसके लिये प्रचार अभियान जोरशोर से चल रहा है। विभिन्न टोली के माध्यम से महायज्ञ में शामिल होने का निमंत्रण देने घर-घर दस्तक दिया जा रहा है। आसपास के गांवों में भ्रमण कर एक मुट्ठी चावल यज्ञ कार्य के लिये देने का अनुरोध किया जा रहा है। आयोजन समिति के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र देवांगन ने बताया कि गायत्री ज्ञान मंदिर धमधा की स्थापना एवं प्राण-प्रतिष्ठा 23 जनवरी 2001 को शांतिकुंज हरिद्वार के प्रतिनिधियों द्वारा की गई। मंदिर की स्थापना के 25वें वर्ष में प्रवेश के उपलक्ष्य में रजत जयंती वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में राष्ट्रजागरण नौ कुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन 21, 22, 23 दिसंबर को किया जा रहा है। इसके लिये प्रचार प्रसार जोरशोर से चल रहा है।  
प्रचार टीम में उषा केसरा दीदी के नेतृत्व में पप्पी कश्यप, प्रभा साहू, खुशी साहू, ललिया यादव, केसर यादव, सोहदा ठाकुर, नीरा साहू, ममता ठाकुर, दामिनी ठाकुर, बेदिन सिन्हा, रूखमिन ठाकुर, ज्ञानेश्वरी एवं धमधा से लोकेश्वरी देवांगन, मनीषा ताम्रकार आदि शामिल हुए।

## खो-खो पारंपरिक खेलों में से एक है: पूर्व गृहमंत्री ताम्रध्वज



अंडा। दुर्ग ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के ग्राम आलबरस में शहीद वीर नारायण खेल क्लब के नेतृत्व में राज्य स्तरीय खो-खो एवं मैराथन प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह कार्यक्रम में मुख्यअतिथि प्रदेश के पूर्व गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू शामिल हुए। इस अवसर पर श्री साहू ने अपने उद्बोधन में कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार के आयोजन से खेल प्रतिभा का विकास होता है। सफल आयोजन के लिए समिति को बधाई दिया। आगे कहा कि सभी खिलाड़ियों, क्रीडा अधिकारी, क्रीडा प्रभारी तथा कोच का स्वागत करते हुए कहा कि खो-खो हमारे देश के पारंपरिक खेलों में से एक है। यह केवल खेल नहीं बल्कि सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक भी है। इससे खिलाड़ियों में कौशल, गति, रणनीति तथा टीम भावना विकसित होती है। इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के आरंभ में सभी अतिथियों ने विभिन्न स्थानों से पधार खिल्लाडियों से परिचय प्राप्त किया। इस अवसर पर जनपद सदस्य रुपेश देशमुख, सरपंच आशा देशमुख, देवीसिंग देशमुख, शोपनारायण चन्द्रवंशी, रामशरण देशमुख, डाला देशमुख, संजय, राहुल, भारत यादव, राजा, योगेंद्र भारती, सोनु, डोमैन्द्र, जय, भूपेंद्र, चोवा राम, ऋतिक सहित ग्रामीणजन, कोच, खिलाड़ी गण मौजूद थे।

**KS GROUP**  
PUNJAB | INDIA

**KS 9300 SELF PROPELLED COMBINE HARVESTER**

BOOK NOW

Loan Facility Available

Available on Reasonable Interest Rate

AUTHORISED DISTRIBUTOR  
**KAMLA MOTORS**  
G.E. ROAD, GANJPARA, DURG (C.G.)  
90398-79080, 94255-50265

**घर, खेत एवं प्लाट में पानी जांच करवाने के लिए संपर्क करें**

देश के नंबर 1 ग्राउंड वाटर चेकर  
**Sorry bhai** से

अधिक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल  
**Kisan ka bore** को संच करें...

**बोर खुदाई करवाने से पहले पानी जांच अवश्य करवा ले**

मो.: 7000716599, 9301831212

**Health Town**

**राज-राजेश्वरी आयुर्वेदिक चिकित्सा केन्द्र**  
(22 वर्षों से क्षेत्र में अनुभवी चिकित्सक)

**क्षार-सूत्र चिकित्सा केन्द्र, रायपुर मो. 9039050422, 91794 55561**

**पाइल्स, फिशर, फिस्टूला विशेषज्ञ**

डॉ. के.बी. श्रीनिवास राव  
INTL Ayurvedic Consultant  
राज्य अलंकरण अवार्ड से सम्मानित

हिररजंप™  
आज ही मुफ्त श्रवण परीक्षण कराएं।

हमारी स्टोर छत्तीसगढ़ में: अंबिकापुर • मिलाई • बिलासपुर • रायपुर • जगदलपुर • कोरवा

विज्ञापन हेतु संपर्क करें: 0771- 4242213, 7987119756, 9303508130



### बार एवं राड मिल ने बनाया उत्पादन का दैनिक रिकार्ड

भिलाई। भिलाई इस्पात संयंत्र की बार एवं राड मिल ने उत्पादन में अब तक का श्रेष्ठ दैनिक रिकार्ड बनाया है। टीएमटी बार बनाने वाली मिल ने 20 मिमी टीएमटी बार के चुनौतीपूर्ण प्रोफाइल में 4,128 टन (2,005 बिलेट) का उत्पादन कर 12 सिंटर को बनाये गए 4,120 टन (2,002 बिलेट) के पिछले श्रेष्ठ को पार कर गया है। निदेशक प्रभारी अनिबान दासगुप्ता के साथ कार्यपालक निदेशक प्रभारी अंजनी कुमार तथा संयंत्र के अन्य वरिष्ठ अधिकारी कार्यशाला में पहुंच टीम की हौसलाअफाजायी की। इस अवसर पर बीआरएम विभाग के महाप्रबंधक शाश्वत मोहंती और शिखर तिवारी के अलावा उप महाप्रबंधक जयंत दीवान, तुषार श्रीखंडे व सहायक महाप्रबंधक एवं डीएसओ शकील अहमद भी उपस्थित थे।

### छतीसगढ़ प्रांत सेन नाई समाज की बैठक आज

दुर्ग। छतीसगढ़ प्रांत सेन नाई समाज की बैठक 10 दिसंबर को मायाराम सुरजन स्मृति हाल रजबंधा मैदान, भाजपा कार्यालय के पास रायपुर में सुबह 11 बजे समाज के प्रांतीय अध्यक्ष पुनीतराम सेन की अध्यक्षता में रखी गई है। समाज के प्रांतीय सचिव भुवनलाल कौशिक ने बताया कि इस बैठक में बलरामपुर में हुए तीहरे हत्याकांड के संबंध में आवश्यक निर्णय लेने के साथ ही महत्वपूर्ण संगठनात्मक चर्चा की जाएगी। बैठक में सभी प्रांतीय, संभाग व जिला पदाधिकारियों के साथ ही विभिन्न प्रकोष्ठ के पदाधिकारी व समाज के प्रमुख लोग शामिल होंगे।

### ब्लास्ट फर्नेस में निकाली पर्यावरण जागरूकता रैली



भिलाई। सेल-भिलाई इस्पात संयंत्र के ब्लास्ट फर्नेस के यातायात अनुभाग द्वारा पर्यावरण जागरूकता रैली निकली गई। महाप्रबंधक प्रभारी गोपीनाथ मलिक विशेष रूप से उपस्थित थे। पर्यावरण संरक्षण के लिए सभी को शपथ दिलाई गई। 18 दिसंबर तक चलने वाली जागरूकता अभियान के अंतर्गत इस रैली को महाप्रबंधक प्रभारी उमा कटोच, महाप्रबंधक संजय कुमार एवं सहायक महाप्रबंधक अनुराधा द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। रैली में विभाग के सभी अधिकारीगण, कर्मचारी व ठेका श्रमिक शामिल थे।

रैली के पश्चात अतिथियों द्वारा पर्यावरण जागरूकता एवं कर्तव्यनिष्ठा के लिए लोगों को शपथ दिलाई गई। गोपीनाथ मलिक, महाप्रबंधक प्रभारी उमा कटोच, महाप्रबंधक संजय कुमार, उप महाप्रबंधक बुद्धदेव टुडू, महाप्रबंधक श्री मिंज एवं सहायक महाप्रबंधक अनुराधा ने जागरूक किया। कार्यक्रम में योगेश सिंह ठाकुर ने धन्यवाद ज्ञापन व संचालन कनिष्ठ प्रबंधक बीआर रावते ने किया।

# मिलाई इस्पात संयंत्र के विभिन्न विभागों ने किया रिकार्ड डिस्पैच सर्वश्रेष्ठ कोक दर दर्ज के साथ और ओर हैडलिंग ने भी रचा कीर्तिमान

भिलाई इस्पात संयंत्र के विभिन्न विभागों ने नवम्बर माह में श्रेष्ठ डिस्पैच का भी रिकार्ड दर्ज किया गया है। स ब्लास्ट फर्नेस-8, स्टील मेल्टिंग शांप-3, यूनिवर्सल रेल मिल, बार एंड रॉड मिल तथा रिफ़्रेक्टरी मैटेरियल्स प्लांट-3 ने श्रेष्ठ उत्पादन रिकार्ड दर्ज किया।



विभिन्न विभागों ने अब तक का श्रेष्ठ मासिक उत्पादन कीर्तिमान रचा है। साथ ही संयंत्र के आरएमपी-3 से लाइम उत्पादन, एसएमएस-3 से कास्ट स्टील व बिलेट उत्पादन, हॉट मेटल, क्रूड स्टील उत्पादन, फिनिश स्टील उत्पादन, सेलेबल स्टील के उत्पादन के साथ ही प्लेट मिल में हाई टेंसाइल प्लेटों के साथ रेल मिल से लॉग रोलों के उत्पादन व डिस्पैच में श्रेष्ठ नवम्बर माह का कीर्तिमान दर्ज किया है। संयंत्र के ओर हैडलिंग

विभाग ने नवम्बर 2024 में कुल मटेरियल हैडलिंग 18,38,864 टन दर्ज किया है, जोकि नवम्बर 2022 में 16,59,941 टन दर्ज किया गया था। आरएमपी-3 द्वारा नवम्बर 2024 में लाइम + सीडी का कुल उत्पादन 53,390 टन दर्ज किया गया, जोकि नवम्बर 2023 में बनाये गए अपने पिछले सर्वश्रेष्ठ 45,848 टन के रिकार्ड को पार कर गया है। संयंत्र के सिंटर प्लांट ने कुल सिंटर का उत्पादन नवम्बर 2024 में 7,51,180 टन दर्ज किया गया है, जोकि नवम्बर 2022 में 7,30,375 टन दर्ज किया गया था। संयंत्र के सिंटर प्लांट-3 ने नवम्बर 2024 में 5,22,644 टन सिंटर का उत्पादन दर्ज किया है, जोकि नवम्बर 2022 में 4,89,681 टन दर्ज किया गया था। ब्लास्ट फर्नेस-8 ने नवम्बर 2024 में 2,43,130 टन हॉट मेटल का उत्पादन दर्ज किया है, जोकि अपने पिछले सर्वश्रेष्ठ नवम्बर 2022 में बनाये गए 2,39,826 टन के रिकार्ड को पार कर गया है।

## एक हजार क्षमता वाले सभागार में रिवाल्विंग स्टेज हटाने से परेशानी प्रदेश के इकलौते प्रेक्षागृह नेहरु भवन को कार्याकल्प की दरकार

हरिभूमि न्यूज ►► गिलाई

बीएसपी टाउनशिप के मध्य में स्थित नाट्य और सामाजिक आयोजनों के सबसे प्रमुख और पचास साल पुराने सभागार सेक्टर एक नेहरु सांस्कृतिक भवन के कार्याकल्प नहीं किए जाने का खामियाजा नाट्य तथा सांस्कृतिक और सामाजिक संगठनों को भुगतना पड़ रहा है। इस थिएटर के टूटफूट के बाद रिनोवेट नहीं किए जाने से आयोजकों को कई तरह की परेशानियों के साथ दर्शकों को भी दिक्कत होती है। कलाकारों ने इसे को सर्वसुविधायुक्त प्रेक्षागृह के रूप में विकसित किए जाने की मांग की है। रिवाल्विंग स्टेज वाला यह प्रेक्षागृह भोपाल के बाद मप्र के इकलौते थिएटर के रूप में चर्चित रहा है।

### पचास साल पुराना भवन हो रहा जर्जर, ठीक से सुनाई नहीं देती आवाज



उल्लेखनीय है कि टाउनशिप में नेहरु हाउस बीएसपी का एकमात्र प्रेक्षागृह है, जहां पिछले 50 साल से प्रमुख रूप से नाटकों का आयोजन होता है। नाट्योत्सवों के अलावा सांस्कृतिक व सामाजिक कार्यक्रम और स्कूलों के वार्षिकोत्सव भी होता है। बीएसपी का नेहरु पुरस्कार वितरण समारोह, भिलाई महिला समाज का स्थापना दिवस जैसे आयोजन भी वर्षों से हो रहे हैं। रिवाल्विंग स्टेज वाला सत्तर के दशक में बना 8 सौ दर्शक की क्षमता वाला कई सुविधाओं से से लैस यह प्रेक्षागृह जर्जर हो रहे भवन और स्टेज सहित मुकम्मल रूप से मॉडर्न मांग रहा है। पांच साल पूर्व इसके रिवाल्विंग स्टेज को हटाने के साथ मंच को भी प्लेन नहीं किया गया है। ऊबड़खाबड़ होने से नाट्योत्सवों के दौरान कलाकारों को मंज सज्जा व अभिनय करते वक्त दिक्कत होती है। वहीं सभागार में दोनों ओर की दीवारों परदे आदि आदि को निकाल कर वैकल्पिक मटेरियल से आवाज गुंजती है। दर्शकों को कलाकारों के संवाद ठीक से सुनाई नहीं देते हैं। कई चेंबर भी टूट चुकी हैं और भवन जर्जर होने से चारों ओर से प्लास्टर छोड़ रहा है।

### रिनोवेशन से होगी सुविधा

नेहरु हाउस के महत्व को देखते हुए इसे भी कलाकर्मिंदर की तरह रिनोवेट किए जाने की मांग की जा रही है। बीएसपी ने 5 साल पूर्व कलाकर्मिंदर का कार्याकल्प कर चेंबर व स्टेज सहित साउंड सिस्टम आदि चकावक कर दिया है। लेकिन कलाकर्मिंदर को सिर्फ बीएसपी के ही आयोजन के लिए ही आरक्षित रखा गया है। नाट्योत्सव नहीं होते और अन्य आयोजन भी कम ही होते हैं, दर्शक क्षमता भी 5 सौ ही है। कलाकारों ने बताया कि बीएसपी प्रबंधन द्वारा नेहरु हाउस को स्टेज, हाल चेंबर आदि सभी सुविधाओं के साथ आज के अनुरूप प्रेक्षागृह के रूप में विकसित किए जाने से राष्ट्रीय स्तर के रंगमंच के स्तर के दर्जनभर से अधिक नाट्य दलों को नाट्योत्सवों में सुविधा होगी। जिस तरह बीएसपी टाउनशिप में उद्यानों व चौकों का सौंदर्यकरण की पहल कर रहा है उसी तरह नेहरु हाउस के भी कार्याकल्प की जरूरत है। यहां बहुभाषीय नाट्य स्पर्धा, अंतरमहाविद्यालयीय नाट्य प्रतियोगिता, 25 साल से इफ्टा के बाल नाट्य शिविर, प्रवासांड तेलुगू नाट्योत्सव सहित कई अन्य संस्थाओं के नाट्य मंचन होत रहते हैं।

## रिफ़्रेक्टरी इंजीनियरिंग विभाग में ई वेस्ट प्रबंधन पर सत्र



हरिभूमि न्यूज ►► गिलाई

भिलाई इस्पात संयंत्र के पर्यावरण प्रबंधन विभाग के सहयोग से रिफ़्रेक्टरी इंजीनियरिंग विभाग (आरईडी) द्वारा आरईडी कार्नेस हाल में ई-वेस्ट प्रबंधन पर एक सत्र आयोजित किया गया। ई-वेस्ट प्रबंधन सत्र में आरईडी के सभी अनुभागों के अधिकारियों और कर्मियों के साथ संविदा श्रमिकों सहित विभागीय कर्मचारियों ने भाग लिया। पर्यावरण जागरूकता माह के अंतर्गत विभागाध्यक्ष और मुख्य महाप्रबंधक प्रोसेसमन्त्री दास सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। सत्र में ई-वेस्ट प्रबंधन के लिए ई-कचरा (प्रबंधन) नियम को समझाया गया।

वेस्ट पुनर्चक्रण लक्ष्य पर आधारित योजनाओं की भी जानकारी साझा की गई। प्रबीएसपी में आरईडी पर्यावरण जागरूकता माह के तहत आयोजित होने वाली विभिन्न गतिविधियों के बारे में बताया गया। सहायक महाप्रबंधक अमित राय ने वरिष्ठ प्रबंधक मोहित कुमार और उप प्रबंधक शालिनी चौरसिया ने सत्र का संचालन का संचालन किया। वक्ताओं ने कहा कि सभी शहरों में एक रिसाइकिलिंग फैक्ट्री होनी चाहिए या कम से कम एक निश्चित डस्टबिन या स्थान होना चाहिए, जहाँ ई-वेस्ट इकट्ठा किया जा सके। सरकार द्वारा पंजीकृत ई-कचरा रिसाइकलर इकाइयों के संपर्क नंबर सभी को पता होने चाहिए।

## डायरेक्टर इंचार्ज क्रिकेट ट्राफी एलुमनी के सेमीफाइनल में हुआ रोमांचक मुकाबला

हरिभूमि न्यूज ►► गिलाई

डायरेक्टर इंचार्ज ट्राफी का प्रथम सेमी फाइनल मैच सीआईसीए और आईआईएमएम की टीमें के मध्य खेला गया। सीआईसीए ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। निर्धारित 15 ओवरों में 101 रनों का स्कोर खड़ा किया। सीआईसीए की ओर से सलामी बल्लेबाज नाबाद 44 रन एवं कपिल नायडू ने नाबाद 38 रनों को पारी खेली। जवाब में आईआईएमएम ने 9 विकेट खोकर 57 रन ही बना सकी। सीआईसीए ने 42 रनों से मैच जीता। सीआईसीए की ओर से कपिल नायडू ने 3 ओवर में 11 रन देकर उविकेट लिए उन्हे मैन ऑफ द मैच चुना गया। मैन आफ द मैच की ट्राफी ओए जोनल प्रतिनिधि डीपीएस बरार एवं प्रीतपाल सिंह द्वारा कपिल नायडू को प्रदान किया गया। मैच के एम्पायर, आनंद करलकर एवं राधेश्याम तथा स्कोरर विनोद देवचूरे एवं संदीप वर्मा थे तथा कमेंट्रीर अभय मोहरिल एवं प्रीतपाल सिंह पिच क्यूरेटर आजाद अहमद थे। मैच के दौरान ओए महासचिव परविन्दर सिंह, जोनल प्रतिनिधि, डीपीएस बरार सहित ओए सदस्यगण उपस्थित थे।



## सीटू का राष्ट्रीय मंथन शिविर: युवा कर्मियों को संगठित करने बनी रणनीति



हरिभूमि न्यूज ►► गिलाई

सीटू के राष्ट्रीय मंथन शिविर में विशेष कार्य योजना बनाकर संगठित क्षेत्र के युवा कर्मियों को एकजुट करने का संकल्प लिया गया है। साथ ही रिभाजनकारी ताकतों से मुकाबला करने रणनीति पर मंथन हुआ। शिविर में भिलाई छग से बीस राज्यों के सदस्यों ने भाग लिया। शिविर में 20 राज्यों से सक्रिय युवा कर्मियों के साथ प्रत्येक राज्य से नेतृत्वकारी साथी सहित कुल 210 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सीटू के राष्ट्रीय महासचिव तपन सेन द्वारा संगठित क्षेत्र के उद्योगों में कार्यरत युवा कर्मियों को संगठित करने की आवश्यकता पर बल देते हुए चुनौतियों और कार्य योजना का प्रारूप प्रस्तुत किया। सीटू भिलाई के एसपी डे ने बताया कि शिविर में इस मुद्दे पर चर्चा हुई कि निजी हो या सार्वजनिक क्षेत्र के प्रबंधन

### होंगे युवाओं के सम्मेलन

शिविर में निर्णय लिया गया कि राज्यों व जिलों में भी इसी तरह युवा कर्मियों का सम्मेलन किया जाएगा जिसमें नेतृत्वकारी युवा कर्मियों को संगठन से जोड़कर अंत में राष्ट्रीय कन्वेंशन आयोजित कर कर्मियों का राष्ट्रीय मांग पत्र तैयार किया जाएगा। शिविर में भिलाई छग के कार्यकारी अध्यक्ष एसपी डे, राज्य समिति अध्यक्ष पी सीनेया, ज्ञानेंद्र सिंह, रवि कुमार कंद, लेखपाल सुधाकर, दौलत राम देवांगन, प्रेम निषाद आदि ने भाग लिया ने भाग लिया। युवा कर्मियों को सम्मानजनक वेतन तथा वैधानिक अधिकारों से वंचित रखने के लिए नए-नए तरीके अपना रहे हैं। प्रबंधन द्वारा अपनाए जाने वाले तरीकों में फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट, स्थाई कार्यों को ठेके पर देने, आउटसोर्सिंग, ट्रेनीज, इंटर्न और अप्रेंटिस से स्थाई कर्मियों का काम लेना आदि शामिल है।

## इंटक ने बीएसपी जीएम को सौंपा ज्ञापन, आवासों में टाइल्स लगाने की मांग

# टाउनशिप के क्वार्टर कर्मियों के जीवन शैली के अनुरूप नहीं



हरिभूमि न्यूज ►► गिलाई

स्टील इन्फ्लाइज यूनिटन इंटक ने नगर सेवाएं विभाग के मुख्य महाप्रबंधक के नाम का ज्ञापन महाप्रबंधक

महाप्रबंधक से युनिटन को आशवासन क्वार्टर में टाइल्स लगाने का ज्ञापन टाउनशिप के सभी कर्मियों के साथ संविदा श्रमिकों सहित विभागीय कर्मचारियों ने भाग लिया। पर्यावरण जागरूकता माह के अंतर्गत विभागाध्यक्ष और मुख्य महाप्रबंधक प्रोसेसमन्त्री दास सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। सत्र में ई-वेस्ट प्रबंधन के लिए ई-कचरा (प्रबंधन) नियम को समझाया गया।

भी मकान बनाए तो भी वह बिना टाइल्स के मकान नहीं बनाता है। उत्पादन के कीर्तिमानी दौर में ध्वजवाहक इकाई भिलाई के कर्मचारी वर्षों से टूटे-फूटे फ्लोरिंग वाले क्वार्टर में रह रहे हैं। क्वार्टरों की मरम्मत के साथ टाइल्स जल्द लगाई जाए, ताकि कर्मियों परिवार को परेशानी न हो। युनिटन ने कहा कि कि कुछ वर्ष पूर्व टाउनशिप प्रबंधन द्वारा टॉयलेट एवं किचन में टाइल्स लगाया गया लेकिन वर्तमान जीवन शैली को देखते हुए यह जरूरी हो गया है की टाउनशिप के सभी क्वार्टर में टॉयलेट, किचन के अलावा सभी कमरों, डाइनिंग स्पेस सहित पूरे क्वार्टर में टाइल्स लगाया जाए।

### सभी चौकों पर लगे रेंडियम पट्टी

युनिटन ने टाउनशिप के सभी चौकों पर रेंडियम पट्टी लगाने की मांग की। इससे रात में चौक पर होने वाली दुर्घटनाओं में कमी आएगी। जीएम विष्णु पाठक ने कहा कि इंटक प्रतिनिधि मंडल में महासचिव वंश बहादुर सिंह कार्यकारी अध्यक्ष पूजन वर्मा वरिष्ठ उपाध्यक्ष एस रवि उपाध्यक्ष अजय कुमार मार्टिन गिरिराज देशमुख उप महासचिव रमाशंकर सिंह धनेश प्रसाद सी पी वर्मा जिनमेयु पत्नीने वरिष्ठ सचिव एवं टाउनशिप प्रभारी ज्ञानेंद्र पांडेय शामिल थे।

## पालतू व बाहरी बंदरों की शरारतें आकर्षण का केंद्र



मैत्रीबाग में घरेलू और बाहरी बंदरों की शरारती नोकझोंक पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इन दिलचस्प नजारे को लोग अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर खूब मजा ले रहे हैं। चिड़ियाघर में दर्जनभर से अधिक बंदर हैं। मैत्रीबाग जू में इन दिनों बदलियों के मौसम के चलते पर्यटकों की आमद बढ़ने के साथ वन्य प्राणियों की भी चंचलता भी बढ़ गई है। बर्ड काम्प्लेक्स में बंदरों के कैज में मैत्रीबाग के पालतू बंदरों और बाहर से आने वाले बंदरों के बीच होने वाली शरारतों को देख लोग रोमांचित हो रहे हैं। मैत्रीबाग में दर्जनभर से अधिक बंदर अपने कैज में हैं। कुछ काले मुंह के बाहर के बंदर पालतू बंदरों के कैज की छत पर बैठकर उछलकूद करते रहते हैं। कभी जाली से नीचे झंकाते हैं कभी अपनी पूंछ नीचे लटककर पालतू बंदरों से छेड़छाड़ करते दिखाई देते हैं। पर्यटक जब कुछ बंदरों को लगे अपने मोबाइल कैमरे में कैद करते हैं तो गुस्साए बाहरी बंदर इन्हें झटका ले रहे हैं। कैज में बंद बंदर दांत किटकिटाकर मन मसोसकर रह जाते हैं। दोनों प्रजाति के बंदरों को इन दिलचस्प शरारतों को पर्यटक मोबाइल में कैद कर खूब मजा ले रहे हैं।



गीता जयंती पर कल महायज्ञ विधि-विधान के साथ होंगे अनुष्ठान

## लाइव इवेंट

हिंदी गानों ने जमाया रंग सांसद बघेल ने भी गुनगुनाया



भिलाई। कारवां मेलेडी स्टार्स द्वारा गोल्डन मेमोरीज ऑफ बॉलीवुड का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई, जिसमें विशेष अतिथि मेजर इंचार्ज शिजू एंथनी, उनकी पत्नी शिजी, प्रसिद्ध गजल गायक प्रभंजय चतुर्वेदी, आयोजक शंख जाकिर, सजीव सुधाकरण और रियाज अहमद ने भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ 1947 से अब तक हिंदी गानों के संगीत विकास पर आधारित वीडियो प्रस्तुति से हुआ, जिसके बाद कुलेश्वर चावरे ने बांसुरी वादन से सभी का मनमोह लिया। इसके बाद स्वर्णिश, जीवन वर्मा, एम. सलीम, डॉ. नितिन वैद्य, सजीव सुधाकरण, रियाज अहमद, शंख जाकिर, कुलेश्वर चावरे, डॉ. बोना सजीव, कृति बक्सी, अंजलि आशा और माधुरी आनंद जैसे प्रतिभाशाली गायकों ने यश यदु के अद्वितीय म्यूजिकल ऑर्केस्ट्रा की धुनों पर शानदार प्रदर्शन किया। यह कार्यक्रम पुराने और नए दिल को रू लेने वाले गीतों का एक संगीतमय सफर था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद विजय बघेल थे। उन्होंने इस भव्य आयोजन के लिए आयोजकों और गायकों को सराहना की।

## दुर्ग-भिलाई के सभी चर्चों के प्रतिनिधि हुए शामिल, सामूहिक रूप से निकाली शोभायात्रा

# क्रिसमस का जश्न शुरू, मसीही समाज ने रैली निकालकर आपसी भाई-चारे का दिया संदेश

दिसंबर माह की शुरुआत के साथ ही मसीही समाज में क्रिसमस के आगमन का उत्साह और उमंग छा गया है। समाज ने रैली निकालकर इसका शुभारंभ किया। दुर्ग-भिलाई के युवा व पूरे मसीही समाज के लोग क्रिसमस वैलकम रैली का पूरे उत्साह के साथ शामिल हुए। यूनाइटेड स्टेशन काउंसिल के बैनर तले रैली की शुरुआत दोपहर 2 बजे मुर्गा चौक से हुई, जो सेंट्रल एवेन्यू से गुजरते रात 10 बजे हॉस्पिटल सेक्टर ईस्ट ग्राउंड में आम सभा के रूप में समाप्त हुई। इस बीच विभिन्न चौक चौराहे पर अलग-अलग चर्च के सदस्यों ने रैली का स्वागत किया। इसी के साथ क्रिसमस की तैयारी शुरू हो गई।

भिलाई। दुर्ग-भिलाई के सभी चर्च के प्रतिनिधि अपने-अपने चर्च के बैनर के साथ इस रैली में शामिल हुए। प्रार्थना व गीत संगीत के नाचते गाते क्रिसमस के आगमन का संदेश दिया। रैली में दूसरे जिलों से आए हुए लोग भी हुए शामिल जिसमें राजनांदगांव, रायपुर, बिलासपुर, बालोद, धमतरी, चांपा, कोरवा आदि जिलों के लोग भी पहुंचे। सभा में मसीही समाज ने सुख-शांति, एकता और भाइचारे के लिए प्रार्थना की साथ ही प्रभु यीशु मसीह के इस पृथ्वी पर जन्म लेने का संदेश दिया। सभा के समापन के पश्चात लोगों के लिए बापटिस्ट चर्च सेक्टर 6 भिलाई की ओर से आम लंगर का आयोजन किया गया। प्रभु यीशु के जन्मदिन यानी क्रिसमस पर 25 दिसंबर को सेलिब्रेशन होंगे। मसीही समाज में इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। समाज में यह महाना पावन माना जाता है। इसे यीशु के आने की खुशी में आगमन काल की तरह मनाया जाता है। चर्च में विभिन्न प्रार्थनाओं का दौर 1 दिसंबर को एडवेंट (आगमन) संडे से शुरू हो चुका है। क्रिसमस से पहले आने वाले चार रविवार एडवेंट संडे कहे गए हैं। इस दिन चर्च में फादर (प्रिस्टर) के प्रवचन देते हैं। अगले 3 रविवार को भी विशेष मनाने के लिए तैयारी है। परम्परा के अनुसार चारों रविवार के लिए चर्च (गिरजाघरों) को साफ-सफाई, रंग-रोगन करके रोशनी से सजाया जा रहा है। प्रभु यीशु के जन्म के प्रतीक चिह्नों को भी चर्च और घरों में साज-सज्जा में शामिल किया जा रहा है।



पूरे महीने चर्च में अलग-अलग कार्यक्रम



जा रही है। हर संडे कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है।

## दुर्ग-भिलाई के सभी चर्च और संस्थाओं के प्रतिनिधि हुए शामिल

रैली में यूनाइटेड क्रिश्चियन काउंसिल, एपिस्कोपल चर्च फेलोशिप कैथोलिक चर्च, भिलाई-दुर्ग, मलंकारा ऑर्थोडॉक्स चर्च माथोमा चर्च भिलाई-दुर्ग, जेकोबाइट चर्च, सामुदायिक चर्च दुर्ग-भिलाई, बैपटिस्ट चर्च, मेनोनाइट चर्च दुर्ग-भिलाई, भिलाई दुर्ग पादरी और नेता फेलोशिप, छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फेलोशिप, सीसीएफ युवा सभा, यूसीसी युवा सभा, सीजी राज्य मसीही समाज संघ वेलफेयर सोसायटी एपिस्कोपल रिवाइवल इंटरनेशनल डायोसीस, भिलाई-3 पास्टर्स फेलोशिप, तेलुगु पास्टर्स फेलोशिप, सीजी अल्पसंख्यक उड़िया मसीही समाज ग्रामीण पादरी फेलोशिप, विश्वव्यापी सुसमाचार मिशन उर्ताई पादरी फेलोशिप तथा सभी पेंटेकोस्टल संप्रदाय के लोग शामिल हुए।



## सिटी इवेंट

अंचल के ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों को हमें जानना जरूरी



भिलाई। यूथ हॉस्टल्स एसोसिएशन ऑफ इण्डिया भिलाई इकाई द्वारा अंचल के ऐतिहासिक एवं भव्य मंदिरों के दर्शनार्थ देव दर्शन बाईक ट्रेकिंग का आयोजन किया गया। इसमें सभी आयु वर्ग के 40 स्त्री पुरुष बच्चों ने हिस्सा लिया। अंचल के अचर्चित किन्तु भव्य देवालयों के दर्शन कर संस्था के सदस्य अत्यन्त प्रसन्न हुए। आयोजन के विषय में विस्तृत जानकारी देते हुए यूथ हॉस्टल्स भिलाई के प्रेसिडेंट ऋषिकान्त तिवारी एवं सचिव सुबोध देवीगन ने संयुक्त रूप से बताया कि देव दर्शन ध्येय से आयोजित इस ट्रेकिंग में सदस्यों ने विष्णु मन्दिर बानबरद, स्वयंभू मावली माता, स्वयंभू मामेश्वर महादेव, स्वयंभू भांजेश्वर महादेव मन्दिर मावलीभांठा तिलई गोंडगिरी, चण्डी माता मन्दिर नेवनारा, महामाया मन्दिर हसदा, कारोकन्या मन्दिर भैंसबोड, सपाद लक्षेश्वर धाम हसदा और सिद्धी माता मन्दिर सपडी के दर्शन किया। वरिष्ठ सदस्य डॉ. जयप्रकाश साव एवं डॉ. कमल साहू ने बताया कि हम देश के विभिन्न हिस्सों के प्रसिद्ध मंदिरों एवं दर्शनार्थ स्थलों के बारे में बहुत जानते हैं, लेकिन अपने ही अंचल के दर्शनार्थ स्थलों के विषय में हमें जानकारी नहीं है। इसलिए इस ट्रेकिंग अभियान की शुरुआत की गई। इस अवसर पर मंजीत कौर मित्त, बलबीर कौर, ममता साहू, सुलेखा साहू, श्वेता तिवारी, ओमकुमारी देवांगन, पात्री देवांगन, ललितला साहू आदि मौजूद थे।

## सिटी इवेंट

तारण तरण के जन्मोत्सव पर शोभायात्रा, शाम को सत्संग



भिलाई। विश्व रतन परम पुज्य 108 आचार्यगुरु तारण तरण मंडलाचार्य की 576 वीं जन्म जयंती पर त्रिवेणी तीर्थ दिवांबर जैन मंदिर सेक्टर-6 में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। आयोजन में सुबह ध्वजारोहण दुर्ग निगम के महापौर धीरज बाकलीवाल ने किया। इसके बाद मंदिर विधि पूजा एवं आरती श्री जिनवाणी माता की पालना को झुलाया गया। नगर भ्रमण के लिए जिनवाणी को पालकी निकाली गई। इस शोभायात्रा में भजनों के साथ आध्यात्म आराधना की गई। शाम के समय भजन संध्या का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम रात 8 बजे तक चला। इस अवसर पर महेश जैन, जैन समाज के अध्यक्ष प्रशांत कुमार, जैन मिलन के अध्यक्ष मुकेश जैन, महामंत्री संजय चतुर्वेदी, एवं तारण समाज के संरक्षक भागचंद जैन प्रमुख रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम की व्यवस्था में प्रदीप जैन बाकलीवाल, राकेश जैन, कमलचंद जैन, चतुर्भुज जैन का प्रमुख योगदान रहा।

## फुटबॉल में मिल जोन ने आयरन जोन से 3-1 से हराया

भिलाई। पंत स्टेडियम सेक्टर-1 में खेल सांस्कृतिक एवं नागरिक सुविधाएं विभाग बीएसपी द्वारा अंतर विभागीय फुटबॉल चैम्पियनशिप का आयोजन किया गया। 3 दिसम्बर से खेले जा रही इस प्रतियोगिता में 6 टीमों ने भाग लिया। सोमवार को फाइनल मुकाबला हुआ। आयरन जोन और मिल जोन के बीच खेला गया यह मैच काफी रोमांचक रहा। जीत के लिए दोनों ही टीमों ने जमकर पसीना बहाया। अंत तक दोनों ही टीमों हार मानने को तैयार नहीं थी। हालांकि मिल जोन ने 3-1 से जीत लिया। इसके साथ ही ने खिताब अपने नाम किया। प्रतियोगिता को लेकर खिलाड़ियों के साथ पूरे टाउनशिप में खास उत्साह देखने को मिला। समापन समारोह में बीएसपी अधिकारी पवन कुमार प्रमुख रूप से मौजूद थे। मुख्य अतिथि पवन कुमार ने पुरस्कार वितरण के पूर्व बीएसपी के



भूतपूर्व फुटबॉल खिलाड़ियों एमआई रहाम (जुलानी), जे प्रतापन, रतन चौरसिया, फारुख बेग, नानू पिल्लई एवं भूतपूर्व फीफा रेफरी आर डी साव को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इसके बाद विजेता एवं उपविजेता टीम को ट्रॉफी एवं व्यक्तिगत पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता में भिलाई इस्पात संयंत्र के भूतपूर्व

अधिकारी, कर्मचारी एवं अन्य दर्शकों ने स्टेडियम में अपनी उपस्थिति दर्ज कर

- बीएसपी की अंतर विभागीय फुटबॉल चैम्पियनशिप में 6 टीमों ने लिया भाग

खेल का आनंद लिया। कार्यक्रम में शाहिद अहमद, शंकर राव, राजीव कुमार, राजेंद्र प्रसाद, केके साहू, प्रेम सागर, विजय शर्मा, अभिजीत भौमिक, डेनिस क्रिस्टी उपस्थित रहे।



## दुर्ग के कसारीडीह का रहने वाला टीसू यादव बना सेना का जवान

# सेना में भर्ती के बाद ट्रेनिंग लेकर लौटे टीसू का जोरदार स्वागत पिता चलाते हैं ई-रिवशा, मोटर मैकेनिक का भी करते हैं काम

## कार्नर न्यूज

दुर्ग। शहर के कसारीडीह में रहने वाला गरीब परिवार का टीसू चंद्राकर आर्मी में सलैक्ट हुआ है। उसने अपनी कड़ी मेहनत के दम पर यह जगह बनाई है। उसे सिकंदराबाद में पोस्टिंग मिली है। पोस्टिंग के बाद जब दुर्ग लौटा, तो मोहल्लेवासियों ने उसका पूरे जोश के साथ स्वागत किया। एक गरीब परिवार से आने वाले टीसू के पिता राजेश यादव पेश से मोटर मैकेनिक हैं। जरूरत के समय वह ई-रिवशा भी चलाकर अपने परिवार का पेट पालते हैं। मां गुहिणी है और घर में टीसू की एक छोटी बहन भी है। उसने अपनी 12वीं तक की पढ़ाई आमतो विद्या निकेतन हुडको में पूरी की। फिलहाल वह बीएस फर्स्ट इयर का छात्र है। उसकी यह नौकरी 12वीं बेस पर लगी।



## फरवरी में रिजल्ट आया, अप्रैल में लगी नौकरी

टीसू ने बताया कि उसने और लोगों के तरह 10वीं और 12वीं बेस पर सेना में जाने के लिए फार्म भरा था। फरवरी माह में उसका रिजल्ट आया। अप्रैल माह में जवाहनिंग के लिए बुलाया गया। इसके बाद कड़ी ट्रेनिंग शुरू हुई। ट्रेनिंग के बाद वह 4 दिसंबर को ही घर लौटा है। फिलहाल वह कुट्टी पर चल रहा है। अपने पुराने दोस्तों के साथ समय बिता रहा है। उसकी शुरू से ही इच्छा थी कि वह सेना में भर्ती हो। देश के लिए कुछ कर दिखाए। अगिनवीर के जरिए उसे यह मौका मिला। फिलहाल वह अगिनवीर के रूप में सेना में सेवाएं दे रहा है। उसकी नौकरी से परिवार के लोगों के खुशी का ठिकाना नहीं है। घर पहुंचने पर उसका पूरा मोहल्ले ने स्वागत किया। पूर्व पार्षद प्रकाश गौरी भी उसके स्वागत को पहुंचे। उन्होंने कहा कि टीसू ने अपने परिवार के साथ पूरे मोहल्ले का नाम रोशन किया है।

## कड़ी मेहनत से मिली सफलता

टीसू बताते हैं कि कड़ी मेहनत के कारण उन्हें सफलता मिली। पढ़ाई के साथ वे सुबह और शाम के समय रनिंग और अन्य एक्सरसाइज किया करते थे। रोजाना दौड़ के लिए गार्डन और स्टेडियम जाया करता था। बस एक ही लक्ष्य था कि उसे देश की सेवा करना है। कठिन मेहनत लगन के कारण उसका सेना में चयन हो गया। दुर्ग जिले से और भी लोगों का चयन हुआ है। प्रायः सभी को अलग-अलग पोस्टिंग मिली है। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उसे नई जिम्मेदारी दी गई है।

## अन्य युवाओं को लेनी चाहिए प्रेरणा

पूर्व पार्षद प्रकाश गौरी ने कहा कि टीसू ने शहर के अन्य लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। आर्मी में सलैक्शन किसी भी स्तर पर आसान नहीं होता। कड़ी स्तर पर फिजिकल, मेंटल टेस्ट के बाद आर्मी में लिया जाता है। हमारे मोहल्ले और शहर के लिए टीसू ने बड़ा काम करके दिखाया है। उसके पिता और चाचा मेरे अच्छे संपर्क में हैं। पिता गाड़ी बनाते हैं। परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है, लेकिन टीसू ने सुविधाओं के अभाव में रहते हुए भी मेहनत नहीं छोड़ी, इसकी वजह से आज वे देश के जवान जैसी अहम जिम्मेदारी में तैनात हो सका।



## ज्योतिष

घर में भूलकर भी इन जगहों पर न रखें पैसे, हो सकती हैं आर्थिक तंगी



वास्तु शास्त्र एक प्राचीन विज्ञान है, जिसका मूल उद्देश्य ऊर्जा का संतुलन बनाना है। इसमें दिशा, भवन निर्माण और धन रखरखाव के नियमों का उल्लेख है। वास्तु के इन नियमों का पालन करने पर व्यक्ति के धन-धान्य और सुख में वृद्धि होती है। आमतौर पर घर बनवाते समय इसके सिद्धांतों का ध्यान रखा जाता है, जो सभी ग्रह दोष समाप्त करता है।

हिंदू धर्म में वास्तु शास्त्र को बेहद महत्वपूर्ण विद्या माना गया है, इसके आधार पर धन राशि रखने से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति बेहतर होती है। वास्तु के मुताबिक पूर्व दिशा उगते हुए सूरज की दिशा है, इस दिशा में पैसे रखने से व्यक्ति के धन में वृद्धि होती रहती है। दक्षिण-पश्चिम दिशा में पैसे रखने से बचना चाहिए। यह यम की दिशा है, यहां पैसे रखने से घर में दरिद्रता आती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि किन स्थानों पर पैसे नहीं रखने चाहिए।

**ऐसी तिजोरी में न रखें धन :** यदि आपकी तिजोरी अंधेरे में है, तो कभी भी यहां पैसे न रखें। वास्तु के अनुसार इस स्थान पर धन रखने से वास्तु दोष लग सकता है। आप चाहें, तो तिजोरी को घर की उत्तर दिशा में रखकर वहां पैसे रख सकते हैं।

**दीवार के पास न रखें :** वास्तु के अनुसार ऐसे स्थानों पर पैसे नहीं रखने चाहिए, जिसकी दीवार बाथरूम से जुड़ी हो। इन स्थानों पर धन रखने से परिवार में नकारात्मकता का वास होता है, साथ ही कार्यों में रुकावट आने लगती है।

**उपहार में मिली चीजों के साथ :** वास्तु के अनुसार उपहार में मिली चीजें जैसे, बॉक्स, ज्वेलरी और घड़ी आदि के साथ पैसे को नहीं रखना चाहिए। इससे आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ता है।

**ऐसे में पर्स में नहीं रखने चाहिए पैसे :** आमतौर पर कुछ लोग पर्स में चाबी और चाकू रखते हैं। इस दौरान वह इस पर्स में कुछ पैसे भी रखते हैं, जो रखना उचित नहीं है। वास्तु के अनुसार ऐसे बैग में धन रखने से आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। वास्तु के अनुसार पुरानी पंचियों और बिल के साथ कभी भी पैसे नहीं रखने चाहिए। इससे घर में पैसों का रुकना मुश्किल होता है।

**रसोई घर बनवाते समय भूलकर भी न करें ये 5 गलतियां, परिजनों की खुशियां पर लग सकता है ग्रहण**



फेंगशुई यानी चीनी वास्तु-शास्त्र, हमारे घरों में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देने और नकारात्मक ऊर्जा को कम करने का एक शक्तिशाली तरीका है। माना जाता है कि हमारे घर का प्रत्येक कोना हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है। रसोई, घर का दिल माना जाता है। यहां हम भोजन बनाते हैं, जो हमारे शरीर और मन को पोषण देता है। इसलिए, रसोई को सही दिशा और ढंग से बनाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। फेंगशुई के अनुसार, रसोई को इस प्रकार डिजाइन किया जाना चाहिए कि यह सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करे और समृद्धि और स्वास्थ्य को बढ़ावा दे।

**इस दिशा में न बनवाएं रसोई घर :** घर के दक्षिण-पश्चिम दिशा में भूलकर भी रसोई घर नहीं बनवाना चाहिए। फेंगशुई के अनुसार, दक्षिण-पूर्व या पूर्व दोनों ही दिशाएं अग्नि तत्व से जुड़ी हैं और रसोई के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती हैं। इन दिशाओं में रसोई होने से घर में समृद्धि और स्वास्थ्य बढ़ता है। अन्य दिशाओं में रसोई होने से कुछ समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए, रसोई की दिशा का ध्यान रखना बेहद जरूरी है।

**रसोई घर का दरवाजा :** रसोई का दरवाजा कभी भी मुख्य द्वार के सामने नहीं होना चाहिए। ऐसा करने से घर में दरिद्रता आती है। दरवाजे का रंग पीला या नारंगी होना शुभ माना जाता है। ये रंग धन और समृद्धि को आकर्षित करते हैं।

**चूल्हे की दिशा :** रसोई घर बनवाते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि चूल्हा रखने की दिशा दक्षिण-पूर्व में होना चाहिए। यह दिशा अग्नि तत्व से जुड़ी हुई है और चूल्हा आग का प्रतीक है। साथ ही इस बात की भी ध्यान रखें कि चूल्हा और सिंक एक-दूसरे के सामने हो। ऐसा करने से परिवार में कलह की आशंका बढ़ जाती है।

**सिंक की दिशा :** सिंक को उत्तर दिशा में रखना शुभ माना जाता है। दक्षिण दिशा में सिंक रखने से बचना चाहिए क्योंकि दक्षिण दिशा अग्नि तत्व से जुड़ी हुई है और अग्नि और जल का संयोजन शुभ नहीं माना जाता है।

हाथ-पैरों की उंगलियों में ठंड लगने से सूजन, लालिमा और खुजली की शिकायत होने लगती है

## सर्दियों में ठंड से क्यों सूज जाती हैं पैरों की उंगलियां? राहत देंगे ये टिप्स

सर्दियों का मौसम भीषण गर्मी से तो राहत देता है लेकिन अपने साथ सेहत से जुड़ी कई तरह की समस्याएं भी साथ लेकर आता है। इस मौसम में लोगों को सबसे ज्यादा हाथ-पैरों की उंगलियों में ठंड लगने से सूजन, लालिमा और खुजली की शिकायत होने लगती है। इस समस्या को अंग्रेजी में पैरिगियो या चिल बर्नस के नाम से भी जाना जाता है।

दरअसल, चिलब्लेन्स, त्वचा पर होने वाली एक ऐसी समस्या है, जिसमें ठंडे तापमान के संपर्क में आने के बाद दर्दनाक, सूजन वाले लाल पैच बन जाते हैं। पुरुषों की तुलना में महिलाएं इस समस्या की शिकायत अधिक होती हैं। यह स्थिति आमतौर पर व्यक्ति के पैरों या हाथों को प्रभावित करती है। जो लंबे समय तक ठंडे तापमान के संपर्क में रहने से होती है।



### गर्म मोजे

सर्दियों में पैरों को गर्म रखने के लिए वूलन मोजे पहनें। ऊनी मोजे ना सिर्फ पैरों को गर्म रखते हैं बल्कि पसीना सोखने में भी मदद करते हैं। इसके अलावा ठंड में पहनने के लिए सही जूतों का इस्तेमाल करें। जूतों की फिटिंग सही ना होने पर पैरों में खून का संचार प्रभावित हो सकता है, जिससे सूजन और खुजली की समस्या हो सकती है।

### नमक के पानी से सिंकाई

गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डालकर उससे अपने हाथ और पैरों की सिंकाई करें।

### गर्म तेल

केलाभाइन लोशन या गर्म तेल लगाने से खुजली और सूजन से राहत मिल सकती है।

### खुजली करने के लिए नाखून की जगह कपड़े का यूज करें

यदि खुजली की समस्या हो रही है तो आप नाखून की जगह कपड़े का इस्तेमाल करें। पैच वाली जगह को हल्के हल्के सहलाएं। खुजली को इन्फ्लेमेशन और ज्यादा गंभीर हो सकता है। ऐसे में खुजली से राहत पाने के लिए कौम या तेल की मदद लें।

### डॉक्टर से संपर्क

समस्या बढ़ने पर आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए।

### चिलब्लेन्स के लक्षण

- रिक्त में सूजन
- त्वचा में बर्निंग सेंसेशन
- दर्द के साथ त्वचा का रंग लाल से डार्क ब्लू हो जाना
- पैरों और हाथों की त्वचा पर छेदे और लाल खुजली वाले पैच

### चिलब्लेन्स के कारण

- ठंडे मौसम में ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित होने से त्वचा संवेदनशील हो जाती है। जिससे चिलब्लेन्स की समस्या हो सकती है।
- सर्दियों में टाइट कपड़े या जूते पहनने से भी चिलब्लेन्स की समस्या हो सकती है।
- जिन लोगों का वजन कम होता है, उनमें भी चिलब्लेन्स होने का जोखिम अधिक रहता है।
- ठंडी हवा के संपर्क में ज्यादा रहने से भी चिलब्लेन्स होने का जोखिम अधिक बना रहता है।



## 20 की उम्र से बना लें ये आदतें तो किडनी की बीमारियां रहेंगी दूर, इन तीन बातों का रखें ध्यान

लाइफस्टाइल और आहार की गड़बड़ी के कारण दुनियाभर में कई प्रकार की बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। डायबिटीज और हार्ट की समस्या के बाद शरीर का शिकार हो रहे हैं को सबसे ज्यादा प्रभावित पाया जा रहा है, उनमें किडनी और लिवर की बीमारियां सबसे ज्यादा हैं। डायबिटीज और उच्च रक्तचाप को क्रोनिक किडनी डिजीज (सीकेडी) का सबसे आम कारण माना जाता है। जिस तरह से कम उम्र के लोग भी 'डायबिटीज और ब्लड प्रेशर का शिकार हो रहे हैं' उसने 30 से पहले की आयु में किडनी की बीमारियों के विकसित होने का खतरा भी काफी बढ़ा दिया है।

स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, किडनी की बीमारियों के कारण स्वास्थ्य क्षेत्र पर अतिरिक्त दबाव बढ़ता जा रहा है, इसलिए 20 की उम्र से ही कुछ आदतें बना लेना सभी के लिए जरूरी है। सक्रिय जीवनशैली और पौष्टिक आहार के सेवन से किडनी की समस्याओं को रोकने में मदद मिल सकती है।

**बहुत महत्वपूर्ण है किडनी की सेहत :** हमारी किडनी मुट्ठी के आकार का अंग है जो पसलियों के नीचे और रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ स्थित होती है। किडनी हमारे रक्त से अपशिष्ट उत्पादों, अतिरिक्त पानी और अन्य अशुद्धियों को छानती है, जिससे रक्त साफ रहता है। ये अपशिष्ट उत्पाद आपके मूत्राशय में जमा हो जाते हैं और बाद में मूत्र के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। इसके अलावा, किडनी हमारे शरीर में पीएच, सोडियम और पोटेशियम के स्तर को नियंत्रित करने का भी काम करती है। यही कारण है कि किडनी को स्वस्थ रखना और बनाए रखना आपके समग्र स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है।

**ब्लड प्रेशर और शुगर को करें कंट्रोल :** ब्लड प्रेशर और शुगर दोनों का बढ़ना सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। इससे किडनी डैमेज होने का खतरा बढ़ जाता है। जब आपके शरीर की कोशिकाएं रक्त में मौजूद ग्लूकोज (शर्करा) का उपयोग नहीं कर पाती हैं, तो किडनी को रक्त छानने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ती है। इसी तरह से हाई ब्लड प्रेशर भी किडनी की क्षति का कारण बन सकता है। किडनी को स्वस्थ और रोग मुक्त रखने के लिए कम उम्र से ही ब्लड प्रेशर और शुगर को कंट्रोल रखना जरूरी है।

**संतुलित आहार का करें सेवन**  
संतुलित और पौष्टिक आहार का सेवन किडनी और शरीर के सभी अंगों को स्वस्थ रखने में मदद करता है। सोडियम, प्रोसेस्ड मीट जैसी चीजें किडनी को नुकसान पहुंचाती हैं। हरी सब्जियां-फल, साबुत अनाज का सेवन करें। किडनी को स्वस्थ रखने के लिए सबसे जरूरी है भरपूर मात्रा में पानी पीते रहना। पानी पीते रहने से किडनी स्वस्थ रहती है। ताजी चीजों को आहार में अधिक शामिल करें जिसमें स्वाभाविक रूप से सोडियम कम हो- जैसे कि फूलगोभी, ब्यूबेरी, मछली, साबुत अनाज।

**धूम्रपान से बनाएं दूरी**  
धूम्रपान आपके शरीर की रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचाता है। इससे आपके पूरे शरीर और किडनी में रक्त का प्रवाह धीमा हो जाता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने पाया कि धूम्रपान करने से आपमें किडनी कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है। यदि आप धूम्रपान करते हैं और धूम्रपान करना बंद कर देते हैं, तो आपका जोखिम कम हो सकता है।

## रोज खाते हैं चावल तो बढ़ सकता है इन 5 गंभीर बीमारियों का खतरा

भारतीय खानपान की यदि बात की जाए तो मोटे तौर पर ऐसी दो ही चीजें हैं जिनका सेवन लगभग रोज ही किया जाता है, वो हैं गेहूं और चावल। हमारे भोजन में प्रमुखता से गम-गम रोटियां और चावल शामिल होते हैं। कुछ लोगों को रोटियां खाना ज्यादा पसंद होता है तो वहीं कुछ लोग चावल खाने के इतने आदी होते हैं कि बिना चावल खाए उनका पेट ही नहीं भरता। अब कोई भी चीज ज्यादा मात्रा में खाना अच्छा नहीं होता इसलिए अगर आप रोजाना चावल खाते हैं, तो आपको इससे होने वाले साइड इफेक्ट्स के बारे में भी जरूर पता होना चाहिए। आज हम आपको ऐसी बीमारियों के बारे में बताने वाले हैं, जिनका खतरा ज्यादा चावल खाने की वजह से बढ़ सकता है।

**शरीर में बढ़ सकती है ओबेसिटी**  
रोजाना खाए जाने वाले व्हाइट राइस में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ही ज्यादा होती है। ऐसे में अगर आप रोजाना भर-भर के चावल खा रहे हैं, तो ये आपके शरीर में चर्बी और मोटापा बढ़ा सकता है। इसके अलावा चावल खाने के कुछ देर बाद ही तेजी से भूख लगने लगती है जिसकी वजह से ऑक्स्ट्रिग की समस्या भी बढ़ जाती है। ऐसे में अगर आप अपने वजन को कंट्रोल में रखना चाहते हैं या वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो चावल कम मात्रा में ही खाएं।

**बढ़ सकता है हार्ट सम्बन्धी बीमारियों का खतरा**  
हेल्थ एक्सपर्ट्स की मानें तो रोजाना चावल खाना आपके दिल की सेहत के लिए भी खतरनाक हो सकता है। दरअसल सफेद चावल में पोषक तत्व ना के बराबर होते हैं, वहीं फाइबर की मात्रा भी कम होती है। इन्हें उली डाइट में शामिल करने पर ट्राइग्लिसाइड लेवल और बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल तेजी से बढ़ सकता है। ये सभी हार्ट संबंधी परेशानियों को बढ़ावा दे सकते हैं। ऐसे में यदि आप राइस लवर हैं तो बाऊन या रेड राइस को अपनी डाइट का हिस्सा बना सकते हैं।

### कार्ण न्यूज

दिसंबर-जनवरी का महीना देश के अधिकतर हिस्सों में भीषण ठंड वाला होता है। हालांकि, इस बार पिछले वर्षों की तुलना में ठंड कम है। सेहत के लिहाज से ठंड का समय कई प्रकार से चुनौतीपूर्ण हो सकता है। विशेषकर बच्चों और बुजुर्गों को इन दिनों विशेष सावधानी बरतते रहने की सलाह दी जाती है। ठंड के कारण सर्दी-जुकाम की समस्या से लेकर साइंस और आर्थराइटिस की दिक्कत ट्रिगर हो सकती है, इसलिए बचाव के उपाय करते रहना सभी के लिए बहुत जरूरी है। क्या आपको भी अन्य लोगों की तुलना में ज्यादा ठंड लगती है? तमाम प्रयास करने के बावजूद भी शरीर जल्दी गर्म नहीं हो पाता है। कभी-कभी ऐसा होना तो सामान्य है हालांकि अगर अक्सर ये दिक्कत बनी रहती है तो सावधान हो जाना चाहिए। कुछ मामलों में ऐसा अंतर्निहित स्वास्थ्य समस्याओं या फिर विटामिन्स की कमी के भी कारण हो सकता है।

साइंस और आर्थराइटिस की दिक्कत ट्रिगर हो सकती है

## क्या आपको भी लगती है बहुत ज्यादा ठंड? करा लें जांच, कहीं आपको ये बीमारियां तो नहीं



### ज्यादा ठंड लगने की समस्या

ठंड अधिक लगना ऐसे तो कोई बीमारी नहीं है, हालांकि यह किसी अंतर्निहित स्वास्थ्य समस्या का संकेत जरूर हो सकता है। एनीमिया, हाइपोथायरॉयडिज्म, फाइब्रोमायॉलजिया या एनोरेक्सिया जैसी स्वास्थ्य समस्याओं के कारण इस तरह की दिक्कत हो सकती है। कुछ प्रकार की क्रोनिक बीमारियों के शिकार लोगों को भी अन्य लोगों की तुलना में अधिक ठंड लग सकती है।

### कहीं आपमें विटामिन्स की कमी तो नहीं?

डॉक्टर कहते हैं, बहुत अधिक ठंड लगना कई बार शरीर में जरूरी पोषक तत्व और विटामिन की कमी के कारण भी हो सकता है। अगर शरीर में विटामिन बी12 की कमी है तो ठंड अधिक महसूस हो सकती है। यह विटामिन लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन और ऑक्सीजन के परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस विटामिन की कमी होने पर शरीर लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन नहीं कर पाता, जिससे एनीमिया हो सकता है।

### क्या कहते हैं विशेषज्ञ?

स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, अगर आपको ठंड अधिक महसूस हो रही है तो तुरंत सचेत हो जाएं और उचित उपचार कराएं। लंबे समय तक पोषक तत्वों की कमी होने से शरीर में कई गंभीर नुकसान हो सकते हैं। खान-पान और दिनचर्या में सुधार करके इस तरह की दिक्कतों में आराम पाया जा सकता है। अगर आपको विटामिन-बी12 या फिर थायरॉयड की समस्या है तो इस बारे में किसी विशेषज्ञ की सलाह जरूर ले लें। इन स्थितियों का समय पर उपचार न हो पाने के कारण कई तरह की जटिलताओं का जोखिम हो सकता है।



### ये बीमारियां भी हो सकती हैं कारण

ठंड के प्रति असहिष्णुता के कई और भी कारण हो सकते हैं जिसपर सभी लोगों को गंभीरता से ध्यान देते रहने की आवश्यकता होती है। एनोरेक्सिया- खाने से संबंधित इस विकार के कारण शरीर में वसा की कमी होने का जोखिम बढ़ जाता है। हाइपोथायरॉयडिज्म- यह बीमारी तब होती है जब थायरॉयड ग्रंथि पर्याप्त मात्रा में थायरॉयड हार्मोन नहीं बना पाती है। रक्त वाहिकाओं की समस्या- इस विकार (जैसे रेनॉड) के कारण शरीर के सभी अंगों तक रक्त का प्रवाह ठीक तरीके से नहीं हो पाता है। हाइपोथैलेमस की समस्या- मरिटाफक का यह हिस्सा शरीर के तापमान को नियंत्रित करने वाले हार्मोन का उत्पादन करता है।

## फिल्म इवेंट

## हॉलीवुड

## हॉलीवुड की इस खूबसूरत अभिनेत्री के साथ नजर आए रणबीर

रणबीर कपूर ने रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अपनी उपस्थिति से सभी का ध्यान आकर्षित किया। इस दौरान उनके स्टाइलिश अंदाज और ओलिविया वाइल्ड के साथ




उनकी मुलाकात ने खूब सुर्खियां बटोरी। हॉलीवुड के सुपरस्टार रणबीर कपूर हाल ही में रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में शिरकत करने पहुंचे। यहां उन्होंने अपने आकर्षक अंदाज से सबका ध्यान खींचा। इस इवेंट में रणबीर ने अकेले ही रेड कार्पेट पर कदम रखा, लेकिन वहां उनकी मुलाकात हॉलीवुड अभिनेत्री और निर्देशक ओलिविया वाइल्ड से हो गई। रणबीर ने इस कार्यक्रम के लिए चमकता हुआ लाल एथनिक सूट और स्टाइलिश चश्मा पहना था। कार्यक्रम में पहुंचने के बाद उन्हें फैंस से मिलते हुए और उनके साथ तस्वीरें खिंचवाते हुए देखा गया। रणबीर अपने फैंस के लिए ऑटोग्राफ भी देते दिखे। जब रणबीर प्रेस के लिए फोटो खिंचाने के लिए खड़े थे, तभी ओलिविया वाइल्ड ने उनसे मुलाकात की। ओलिविया सफेद ऑफ-शोल्डर गाउन और गोल्ड ब्रेसलेट में बेहद खूबसूरत लग रही थीं। दोनों ने कुछ समय एक-दूसरे से बातचीत की और फिर रेड कार्पेट पर साथ चलकर पोज दिए। इस दौरान दोनों सितारे एक-दूसरे के करीब खड़े होकर मुस्कराते हुए कैमरे के सामने पोज देते दिखे। रणबीर कपूर इस फेस्टिवल में भाग लेने वाले चुनिंदा भारतीय कलाकारों में से एक थे।

## टॉलीवुड

## करियर से ब्रेक लेने की खबरों के बीच 'सूर्या 45' से बाहर हुए एआर रहमान

एआर रहमान को आरजे बालाजी के साथ सूर्या की आगामी फिल्म के संगीतकार के रूप में बदल दिया गया है, जिसका अस्थायी शीर्षक सूर्या 45 है। आरजे बालाजी द्वारा निर्देशित बहुप्रतीक्षित फिल्म 'सूर्या 45' की शूटिंग वर्तमान में कोयंबटूर और आसपास के इलाकों में हो रही है और निर्माता प्रशंसकों को जोड़े रखने के लिए



फिल्म से नियमित अपडेट साझा कर रहे हैं। हालांकि, हालिया अपडेट से पता चला है कि एआर रहमान ने इस परियोजना से हाथ खींच लिए हैं, क्योंकि संगीतकार का नाम 'सूर्या 45' के पोस्टर से गायब था। दरअसल, एआर रहमान को आरजे बालाजी के साथ सूर्या की आगामी फिल्म के संगीतकार के रूप में बदल दिया गया है, जिसका अस्थायी शीर्षक सूर्या 45 है। फिल्म को शुरू में संगीतकार के रूप में एआर रहमान के साथ लॉन्च किया गया था। हालांकि, हाल ही में, निर्माताओं ने एक पोस्टर जारी किया, जिसमें साई अश्वकर को नए संगीतकार के रूप में फिल्म की टीम में शामिल करने की जानकारी दी गई। निर्माताओं संगीतकार का स्वागत करने के लिए पोस्टर आधिकारिक रूप से साझा किया है। सूर्या की फिल्म के पोस्टर से यह भी पता चला कि जोके विष्णु, जो एटली के साथ सहयोग के लिए जाने जाते हैं, वह भी इस फिल्म पर काम करेंगे। गायक टीपू और हरिनी के बेटे साई अश्वकर एक युवा गायक और संगीतकार हैं।

## भोजपुरी

## रितेश पांडेय के गाने 'हैलो कौन' ने रचा इतिहास, व्यूज एक बिलियन के हो गए पार



भोजपुरी सिने जगत में एक से बढ़ कर एक दिग्गज हैं, लेकिन सुपर स्टार रितेश पांडेय ने उन सबको पीछे छोड़ते हुए एक नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। वे भोजपुरी के पहले ऐसे सिंगर बन गए हैं, जिनका गाना 'हैलो कौन' को 1 बिलियन से भी ज्यादा लोगों ने देख लिया है। इस गाने को यूट्यूब पर एक बिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं, जो भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए एक अनमोल उपलब्धि है। गाना रिडिग् म्यूजिक वर्ल्ड से रिलीज हुआ था और इसके गीतकार और संगीतकार आशीष वर्मा हैं। गाने के निर्देशक सोनु वर्मा और आशीष यादव हैं, जिन्होंने इस गाने को अपने बेहतरीन निर्देशन से नया मुकाम दिया है। 'हैलो कौन' गाने को रिलीज हुए बहुत समय हो चुका है, लेकिन यह गाना अभी भी दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बनाए हुए है। इस गाने को रिडिग् म्यूजिक वर्ल्ड पर 4 मिलियन से ज्यादा लाइक्स भी मिल चुके हैं, जो इसके सफलता का स्पष्ट संकेत है। यह गाना अब भोजपुरी सिनेमा के सबसे सफल गानों में शुमार हो चुका है और यह भोजपुरी म्यूजिक के इतिहास में एक अनब्रेकबल रिकॉर्ड बना चुका है। रितेश पांडेय ने इस सफलता के लिए अपने फैंस और श्रोताओं का धन्यवाद दिया और कहा कि यह गाना सिर्फ उनकी मेहनत का फल नहीं, बल्कि उनके दर्शकों का प्यार और समर्थन भी है। इसके साथ ही उन्होंने अपने साथियों, संगीतकार आशीष वर्मा और निर्देशक सोनु वर्मा का भी आभार व्यक्त किया। पीआरओ रंजन सिन्हा ने भी इस गाने की सफलता को लेकर खुशी जताई और बताया कि यह गाना भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए एक नई ऊँचाई तक पहुंचा है। यह गाना आज भी लोगों के बीच बेहद पॉपुलर है, और इसकी सफलता से रितेश पांडेय और स्नेह उपाध्याय के फैंस को एक और शानदार अनुभव मिला है।

## फिसमस की पार्टी के लिए इस तरह हो तैयार



## लाइफ़ स्टाइल

हॉलीवुड की कई हसीनाएं फैशन इन्सपिरेशन के मामले में परफेक्ट हैं। ऐसे में आप फिसमस पार्टी के लिए इन अभिनेत्रियों के लुक से टिप्स ले सकती हैं। फिसमस पर ज्यादातर लाल रंग की ड्रेस ही पहनी जाती है। ऐसे में आप सुहाना खान की तरह लाल रंग का बॉडीकॉन गाउन कैरी कर सकती हैं। सीक्विन वर्क वाला ऐसा गाउन आपको ग्लैमरस लुक देने का काम करेगा। इसके साथ अपने बालों को वेवी कर्ल करके खुला रख सकती हैं। पार्टियों में सीक्विन वर्क वाला आउटफिट आपके लुक में चॉंद लगाने का काम करेगा।

## बालों की देखभाल के काम आ सकते हैं अमरूद के पत्ते, जानें इनके इस्तेमाल का तरीका

अमरूद के पत्ते बालों के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं क्योंकि इनमें एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन बी, और विटामिन सी जैसे पोषक तत्व होते हैं, जो बालों को मजबूत बनाते हैं। खराब खान-पान और लगातार बढ़ते प्रदूषण की वजह से आजकल हर कोई झड़ते बालों से परेशान है। बहुत से लोगों के साथ तो ये समस्या इस कदर बढ़ गई है कि यदि वो बालों में एक बार भी कंघी फिराते हैं तो काफी सारे बाल हाथ में आ जाते हैं। इस हेयर फॉल को रोकने के लिए लोग बाजार में मिलने वाले हेयर केयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। ये प्रोडक्ट असरदार तो होते हैं, लेकिन आप जैसे ही इनका इस्तेमाल बंद कर देते हैं, इनका असर खत्म हो जाता है। ऐसे में ज्यादातर लोग घरेलू नुस्खों पर भरोसा करते हैं। यदि आप भी उन्हीं लोगों में से हैं, जिन्हें घरेलू नुस्खों पर भरोसा है तो हम यहां हेयर फॉल रोकने का एक सीक्रेट बताते जा रहे हैं। दरअसल, आप अमरूद के पत्तों के इस्तेमाल से न सिर्फ बालों का झड़ना रोक सकते हैं, बल्कि ये आपके बालों को चमकदार बनाने में भी मदद करता है।



**पहला तरीका**  
इस पहले तरीके से अमरूद की पत्तियों का इस्तेमाल करने के लिए आपको 10 से 15 अमरूद के ताजा पत्ते चाहिए होंगे। इसके साथ ही आपको इसके लिए एक लीटर पानी की जरूरत भी पड़ेगी।

## इस्तेमाल का तरीका

इसके इस्तेमाल के लिए सबसे पहले एक पैन में पानी लें और उसमें अमरूद के पत्ते डालें। अब इसे 20 मिनट तक धीमी आंच पर उबालें। जब पानी ठंडा हो जाए, इसे छानकर एक बर्तन में रखें। बालों को शैंपू से धोने के बाद इस पानी से बालों को धोएं। इसे 30 मिनट तक बालों में रखें और फिर सादे पानी से धो लें। ये मिश्रण बालों को चमकदार बनाता है और उन्हें झड़ने से रोकता भी है।

## दूसरा तरीका

इसके इस्तेमाल का दूसरा तरीका है हेयर मास्क तैयार करना। अमरूद के पत्तियों से हेयर मास्क बनाने के लिए आपको पत्तियों के साथ-साथ नारियल तेल या जैतून का तेल चाहिए होगा।

## इस्तेमाल का तरीका

इसके लिए ताजा अमरूद की पत्तियों को पीसकर पेस्ट बना लें। अब इसमें नारियल तेल मिलाएं। इस पेस्ट को स्कैल्प पर लगाएं और हल्के हाथों से मसाज करें। इसे 1 घंटे के लिए छोड़ दें और फिर माइल्ड शैंपू से धो लें। ये मास्क आपके बालों को घना बनाएगा।

## मलाई में मिलाकर चेहरे पर लगाएं ये चीज, खत्म हो जाएगा त्वचा का रूखापन

सर्दियों का मौसम शुरू होते ही लोग अपनी त्वचा के रूखेपन से काफी परेशान हो जाते हैं। कई बार तो ये रूखापन इस कदर बढ़ जाता है कि त्वचा फटने लगती है और इनसे खून तक निकलने लगता है। ऐसे में हर कोई त्वचा का ध्यान रखने के लिए बाजार में मिलने वाले बांडी लोशन और कोल्ड क्रीम का इस्तेमाल करता है। इनके इस्तेमाल से त्वचा कुछ देर के लिए हाइड्रेट हो जाती है। पर, यदि आप अपनी त्वचा को आंतरिक रूप से हाइड्रेट करना चाहते हैं तो उसके लिए मलाई का इस्तेमाल करें। मलाई में कई ऐसे तत्व पाए जाते हैं, जो त्वचा में अंदर से नमी पहुंचाते हैं। इसका इस्तेमाल चेहरे से लेकर हाथ-पैरों में भी किया जा सकता है। यहां हम आपको दो तरह से मलाई का इस्तेमाल करना सिखाएंगे, ताकि आप भी आसान तरीके से इसका लाभ उठा सकें।



## मलाई और शहद

मलाई और शहद को मिलाकर यदि चेहरे पर लगाया जाए तो इससे न सिर्फ आपकी त्वचा की नमी बरकरार रहेगी, बल्कि साथ ही नये त्वचा की प्राकृतिक चमक को बरकरार रखेगा। इसके इस्तेमाल के लिए 1 चम्मच मलाई में 1 चम्मच शहद मिलाएं। अब इसे चेहरे पर लगाएं और 15-20 मिनट बाद धो लें। कुछ दिन ही इसके इस्तेमाल से आपको असर दिखने लगेगा।


## मलाई और बेसन

मलाई और बेसन त्वचा की डेड स्किन को हटाता है, जिस वजह से त्वचा खिल उठती है। डेड स्किन हटने की वजह से त्वचा को ज्यादा नमी मिलती है। इसके इस्तेमाल के लिए आपको सिर्फ 1 चम्मच मलाई में 1 चम्मच बेसन मिलाएं। अच्छी तरह से मिलाकर के बाद इस पेस्ट को चेहरे पर लगाएं और 10-15 मिनट बाद हल्के हाथों से रगड़कर धो लें।

## बिना मस्कारा लगाए ही पलकें दिखेंगी लंबी-घनी और खूबसूरत, जान लें ये कमाल के ब्यूटी हैक्स

खूबसूरत आंखें किसी की भी सुंदरता में चार चांद लगाने का काम करती हैं। यही वजह है कि आंखों के मेकअप को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस और टाइम दिया जाता है। इस दौरान पलकों को लंबी-घनी और खूबसूरत दिखाने के लिए आमतौर पर मस्कारा या फेक आइलेशेज का इस्तेमाल होता है।

हालांकि रोजाना के मेकअप के लिए तो मस्कारा ही ज्यादा यूज किया जाता है। तरह-तरह के केमिकल्स से भरपूर मस्कारे का ज्यादा इस्तेमाल आई लैशेज को थिन कर सकता है, साथ ही कई बार लोकल क्वालिटी का मस्कारा आंखों के लिए भी डैमेजिंग हो सकता है। ऐसे में बेहतर यही है कि आप इसे रोजाना बिस्कुल भी ना इस्तेमाल करें।



पेट्रोलियम जेली का करें इस्तेमाल: बिना मस्कारे के अपनी आई लैशेज को लंबा-घना और खूबसूरत दिखाना चाहती हैं, तो आपकी रिस्कनेकियर किट में रखा वेसलिन आपकी खूब मदद कर सकता है। इसके लिए बस अपने किसी पुराने मस्कारे के बश को लें और उसपर पेट्रोलियम जेली अप्लाई कर दें। अब इसे अपनी पलकों पर ठीक उसी तरह लगाएं जैसे आप मस्कारा लगाती हैं। आप देखेंगी कि

बिना मस्कारा लगाए ही आपकी पलकें पहले से ज्यादा शाइनी और लंबी हो जाएंगी। अगर आप नेचुरली अपनी पलकों को थोड़ा लंबा-घना चाहती हैं, तो रोज रात में सोने से पहले भी ये प्रॉसेस कर सकती हैं। ऑयल ऑयल या कैस्टर ऑयल का करें इस्तेमाल: अपनी पलकों को थोड़ा लिफ्ट करने और लंबा-घना दिखाने के लिए आप ऑयल ऑयल या कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल कर सकती हैं। इस्टेट रिजल्ट के लिए किसी लचीली मस्कारा बश या अपनी उंगलियों पर ही थोड़ा सा ऑयल लें। अब इसे अपनी पलकों पर लगाते हुए उन्हें ऊपर की तरह लिफ्ट करें। ऐसा करने से आपकी पलकें शाइनी और अपलिफ्ट दिखेंगी। हालांकि ऑयल की क्वालिटी बहुत ही कम रखें वरना ये आपका मेकअप लुक बिगाड़ सकता है। वहीं अगर आप को परमानेंट तौर पर लंबी घनी आई लैशेज चाहिए तो रोजाना सोने से पहले आप ये रूटीन अपना सकती हैं।

## कार्न न्यूज

गुणगुनी गर्माहट और लुक को भी दिलचस्प और आकर्षक बनाने का काम करती हैं

## युवाओं के बीच लौटा हाथ से बुने स्वेटर का ट्रेंड स्टाइलिश लुक के साथ सेहत को भी फायदा



## ममता मरी गर्माहट

हमारी देसी संस्कृति में हाथ से बुने स्वेटर महज सर्दी से बचाव का एक साधन नहीं है, बल्कि भरा-पूरा इमोशन है। पूर्वी दिल्ली में रहने वाली अस्सी वर्षीय कुसुम शर्मा अपने इलाके में अपने स्वेटरों के आकर्षक डिजाइनों के लिए बहुत मशहूर हैं। पुराने दिन याद करते हुए वे बताती हैं, 'साठ और सत्तर के दशक में अच्छी बुनाई आना लड़कियों का गुण माना जाता था।



## नए फैशन पर भारी

फैशन ट्रेंड्स की सबसे खास बात यह है कि कोई ट्रेंड कुछ समय के लिए तो पीछे छूट सकता है, लेकिन कभी ना लौट कर वापस जरूर आता है। यही वजह है कि फैशन के पारखी कभी भी किसी स्टाइल को पूरी तरह खारिज नहीं करते हैं। बड़ी-बड़ी हस्तियों से लेकर तमाम सेलिब्रिटीज तक अपनी शायी या अन्य खास अवसरों पर अपनी दादी-नानी या मां की साड़ी और गहने बड़े चाव से पहनती हैं।



## सेहत के साथ कमाई भी

ठंड के मौसम में मन में छाने वाली उदासी, जिसे विंटर ब्लूज कहते हैं, उससे उबरने में भी ऊन-सिलाई आपकी मदद करेगी। बुनाई से ना सिर्फ खाली समय आसानी से कट जाता है बल्कि बुनाई के नए-नए डिजाइन बनाने से दिमाग भी तेज बना रहता है। इतना ही नहीं, बहुत सी महिलाएं तो इसे पुराने दर्द और अकड़न को ठीक करने में भी बहुत कारगर मानती हैं। पैसठ वर्षीय संतोष याद करते हुए बताती हैं कि, 'सर्दियां शुरू होते ही महिला पत्रिका लेने की उत्सुकता बढ़ जाती थी क्योंकि उनमें बुनाई विशेषांक आता था। स्वेटर बनाने का उत्साह इतना ज्यादा होता था कि शरीर का कोई दर्द याद ही नहीं रहता था।

**बुनाई के हैं कई फायदे**  
विभिन्न शोध बताते हैं कि बुनाई करने से बहुत-सी मानसिक समस्याओं में फायदा होता है। ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी के एक शोध में इंडियन डिसऑर्डर से पीड़ित कुछ महिलाओं को प्रतिदिन बुनाई करने की सलाह दी गई। इस शोध में पाया गया कि ऐसा करने से 74 प्रतिशत महिलाओं में चिंता और तनाव के लक्षण कम होने लगे। इसके अलावा भी शारीरिक और मानसिक सेहत के लिए बुनाई बहुत फायदेमंद है। नियमित बुनाई दिल की धड़कन की गति संतुलित करती है, जिसे उच्च रक्तचाप और तनाव में कमी आती है। बुनाई करना मेडिटेशन के समान ही फायदा देता है। इससे एकग्रता बढ़ती है और दिमाग के मोट्टर रिक्ल बेहतर होते हैं। प्रकृति के दर्द में यह विशेष रूप से प्रभावी है। बुनाई अल्जाइमर और डिमेंशिया का खतरा भी कम करती है। जब किसी को कुछ बुनकर देती हैं, तो उससे मन को खुलून और खुशी का एहसास होता है।